



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2011 (ज्येष्ठ 21, 1933)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2011 (JYAISTHA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2011

सेना शाखा

सं. 239, दिनांक 27 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित
थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

पलाइंग अफसर के पद पर (परख पर)

चेतन यादव (एमआर-09099एच), एएमसी, 09 सितम्बर 2010

यश पांडे

त्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 240, दिनांक 27 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3

विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 18
मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 18
सितम्बर 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. आर्बटित व आर्म/सर्विस

प्रवीण कुमार (एसएस-41806पी) (आईसी-72802ए), आर्टी

अभिवेक दिगंबरराव जुमडे (एसएस-41809एच) (आईसी-72803एच),
मैक इंफैं

अनिल कुमार सल्लगोत्रा (एसएस-41811ए) (आईसी-72805एन), इंफैं

जिज्ञासु पुरी (एसएस-41812एच) (आईसी-72806डब्ल्यू), आर्टी

अनिल कुमार (एसएस-41813एल) (आईसी-72807वाई), एएससी

अभिक दत्ता (एसएस-41814एन) (आईसी-72808एफ), इंफैं

सचिन संभाजी देशमुख (एसएस-41815डब्ल्यू) (आईसी-72809के),
इंफैं

सिंह नेगी महेंद्र दिवान (एसएस-41818के) (आईसी-72812के),
आर्टी

विवेक कुमार जसवाल (एसएस-41819एम) (आईसी-72813एम),
इंफैं

दुष्यंत सिंह शेखावत (एसएस-41822एम) (आईसी-72816ए), इंफैं

राहुल तेंवर (एसएस-41825ए) (आईसी-72818ए), एएससी

सतीश कुमार सिंह (एसएस-41826एच) (आईसी-72819एन), आर्टी

सुमन कुमार सिन्हा (एसएस-41828एन) (आईसी-72821एल), एएडी

भास्कर लिम्बू (एसएस-41829डब्ल्यू) (आईसी-72822एन), इंफैं

शिव शंकर दीप एस (एसएस-41830एल) (आईसी-72823डब्ल्यू),
इंफैं

मौसम कुमार (एसएस-41831एन) (आईसी-72824वाई), आर्टी

प्रितिकान्त मोहापात्र (एसएस-41833वाई) (आईसी-72825एफ),
एएडी

राकेश कुमार ढण्डपत (एसएस-41835के) (आईसी-72827एम),
एएडी

शरद हैनरी जोजफ (एसएस-41838एक्स) (आईसी-72828पी), आर्टी

तेज प्रताप सिंह (एसएस-41839ए) (आईसी-72829एक्स), इंफैं

नीरज गुप्ता (एसएस-41840पी) (आईसी-72830एम), आर्टी

अनुराग सिंह (एसएस-41841एक्स) (आईसी-72831पी), आर्टी

सुशील कुमार चौधरी (एसएस-41842ए) (आईसी-72832एक्स),
आर्टी

जाधव मंदार चंद्रकांत (एसएस-41845एन) (आईसी-72835एल),
इंफैं

विकास चौहान (एसएस-41849के) (आईसी-72838वाई), इंफैं

रोहित गुलेरिया (एसएस-41851एफ) (आईसी-72840डब्ल्यू), इंफैं

गिरीश कुमार शर्मा (एसएस-41853एम) (आईसी-72842एफ),
इंफैं

विकास शर्मा (एसएस-41854पी) (आईसी-72843के), इंफैं

जयदीप (एसएस-41855एक्स) (आईसी-72844एम), मैक इंफैं

गुरदकबाल सिंह (एसएस-41857एच) (आईसी-72845पी), इंट

ओंकार जोशी (एसएस-41858एल) (आईसी-72846एक्स), इंफैं

एम पी अव्यप्पा (एसएस-41859एन) (आईसी-72847ए), इंफैं

हर्षा कुमार (एसएस-41860एच) (आईसी-71848एच), आर्टी

रनदीप सिंह बीका (एसएस-41861एल) (आईसी-72849एल), इंफैं

विनय कुमार पान्डेय (एसएस-41863डब्ल्यू) (आईसी-72850ए),
इंफैं

राकेश कुमार सिंह (एसएस-41864वाई) (आईसी-72851एच), आर्टी

प्रतीक मलिक (एसएस-41866के) (आईसी-72852एल), जैग

अभिषेक राठी (एसएस-41869एक्स) (आईसी-72854डब्ल्यू), इंफैं

हाउरोकचम खागेम्बा (एसएस-41870एम) (आईसी-72855वाई),
इंफैं

अमित कुमार पाण्डे (एसएस-41871पी) (आईसी-72856एफ),
इंफैं

नीरज तुली (एसएस-41874एच) (आईसी-72857के), आर्टी

अमित कुमार यादव (एसएस-41875एल) (आईसी-72858एम),
आर्टी

मनोज कुमार खाती (एसएस-41876एन) (आईसी-72859पी), इंफैं

भारत भूषण (एसएस-41877डब्ल्यू) (आईसी-72860के), एएडी

मुकुन्द वी (एसएस-41878वाई) (आईसी-72861एम), इंफैं

रमनदीप भक्कड़ (एसएस-41882एफ) (आईसी-72863एक्स), आर्टी

अभिनव कुमार (एसएस-41884एम) (आईसी-72865एच), मैक इंफैं

मुकेश कुमार के (एसएस-41885पी) (आईसी-72866एल), आर्टी

विककी क्षेत्री (एसएस-41888एच) (आईसी-72869वाई), आर्टी

हरिकेश प्रताप सिंह (एसएस-41893एन) (आईसी-72872वाई),
एओसी

गायकवाड शाम राव आनन्द (एसएस-41894डब्ल्यू)
(आईसी-72873एफ), इंफैं

टी कृष्णा कुमार (एसएस-41895वाई) (आईसी-72874के), इंफैं

अक्षय विजय पवार (एसएस-41896एफ) (आईसी-72875एम),
एसी

विकास कुण्डू (एसएस-41897के) (आईसी-72876पी), एएडी

वानलाल सांगा (एसएस-41898एम) (आईसी-72877एक्स), इंफैं

अतुल देवली (एसएस-41901एफ) (आईसी-72879एच), आर्टी

प्रदीप कुमार श्योकंद (एसएस-41902के) (आईसी-72880एक्स),
इंफैं

वरूण वशिष्ठ (एसएस-41903एम) (आईसी-72881ए), एएससी

चिंगप्पा सी जी (एसएस-41905एक्स) (आईसी-72882एच), इंफैं

दीपेश प्रकाश (एसएस-41906ए) (आईसी-72883एल), इंफैं

गौरव सिंह (एसएस-41907एच) (आईसी-72884एन), आर्टी

विकास रायजादा (एसएस-41908एल) (आईसी-72885डब्ल्यू), एओसी

ब्रह्म देव सिंह (एसएस-41910एच) (आईसी-72886वाई), एओसी

कपिल पाठक (एसएस-41917एम) (आईसी-72888के), एएससी

स्वागत शर्मा (एसएस-41918पी) (आईसी-72889एम), एसी
गजेन्द्र एस शेखावत (एसएस-41919एक्स) (आईसी-72890एफ),
इंफैं

जोरावर सिंह जम्वाल (एसएस-41920एम) (आईसी-72891के),
इंफैं

पंकज सिंह (एसएस-41921पी) (आईसी-72892एम), इंफैं

रवि पंवार (एसएस-41922एक्स) (आईसी-72893पी), इंफैं

गौरव मिश्रा (एसएस-41923ए) (आईसी-72894एक्स), इंफैं

शरत अनिगोल (एसएस-41925एल) (आईसी-72895ए), मैक इंफैं

अभिषेक सान्दू (एसएस-41926एन) (आईसी-72896एच), इंफैं

राज कुमार पोलुमुरी (एसएस-41928वाई) (आईसी-72897एल),
इंफैं

सिद्धार्थ सिंह सम्बयाल (एसएस-41929एफ) (आईसी-72898एन),
इंफैं

जगपाल सिंह (एसएस-41931वाई) (आईसी-72899डब्ल्यू), इंफैं

प्रज्जवल दीक्षित (एसएस-41932एफ) (आईसी-72900ए), इंफैं

गुरप्रीत सिंह अरोरा (एसएस-41934एम) (आईसी-72902एल),
आर्टी

अंकित मल्होत्रा (एसएस-41939एल) (आईसी-72906एफ), इंफैं

अश्विन पुण्डरी (एसएस-41941एच) (आईसी-72907के), एसी

अमरीश दुबे (एसएस-41942एल) (आईसी-72908एम), एओसी

अब्राहाम अनंद अरून्कुमार (एसएस-41944डब्ल्यू) (आईसी-72910के),
आर्टी

सर्ताज सिंह पन्नु (एसएस-41947के) (आईसी-72912पी), एओसी

अजय यादव (एसएस-41950के) (आईसी-72913एक्स), एओसी

गोपाल अरोड़ा (एसएस-41951एम) (आईसी-72914ए), इंट

आशीष सक्सेना (एसएस-41955एच) (आईसी-72917एन), इंफैं

खाई सोममंग वाईफेई (एसएस-41957एन) (आईसी-72919वाई),
इंफैं

राम चन्द्र (एसएस-41958डब्ल्यू) (आईसी-72920एन), एओसी

श्वेताभ सिंह (एसएस-41961डब्ल्यू) (आईसी-72923एफ), इंफैं

प्रशांत धवन (एसएस-41963एफ) (आईसी-72925एम), इंट

मीर नदीम (एसएस-41966पी) (आईसी-72927एक्स), आर्टी

कृष्ण दयाल सिंह (एसएस-41969एच) (आईसी-72929एच), आर्टी

ए पी सी राजेश (एसएस-41980एफ) (आईसी-72936वाई), आर्टी

क्रिस्टो सुदीप डिसोजा (एसएस-41981के) (आईसी-72937एफ),
आर्टी

अमिताब घोषाल (एसएस-41984एक्स) (आईसी-72940एफ), एसी

विजय कुमार (एसएस-41985ए) (आईसी-72941के), एएससी

ध्रुवव्रत काकोटी (एसएस-41986एच) (आईसी-72942एम), इंफैं

कुमार अनुराग सिंह (एसएस-41990एल) (आईसी-72945ए), इंफैं

गौरव तिवारी (एसएस-41992डब्ल्यू) (आईसी-72947एल), इंफैं

अनिरुद्ध आनन्द (एसएस-41993वाई) (आईसी-72948एन), मैक
इंफैं

सैन ए नवीन (एसएस-41997पी) (आईसी-72950एल), आर्टी

जितेन्द्र सिंह (एसएस-42002एम) (आईसी-72953वाई), आर्टी

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 18 मार्च 2006

पदोन्नति के लिये तारीख - 18 अक्टूबर 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद
स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो
अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी
है।

राष्ट्रपति, यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के
अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 18
मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 18
मार्च 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. आर्बिटि व आर्म/सर्विस

सेन्थिल आनंद (एसएस-41779डब्ल्यू) (आईसी-72786एन),
सिग्नल्स

रवि सुनहरे (एसएस-41780एल) (आईसी-72787डब्ल्यू), इंजीनियर्स

उदय सिंह राठौड़ (एसएस-41781एन) (आईसी-72788वाई), सिग्नल्स

संदीप सिंह (एसएस-41783वाई) (आईसी-72789एफ), इंजीनियर्स

अभिनव (एसएस-41786एम) (आईसी-72790डब्ल्यू), ईएमई

दीनबन्धु (एसएस-41788एक्स) (आईसी-72791वाई), इंजीनियर्स

एन अनन्ता वर्मा (एसएस-41789ए) (आईसी-72792एफ), सिग्नल्स

एम दानिश सिद्धिकी (एसएस-41792ए) (आईसी-72795पी),
इंजीनियर्स

गौरव साहनी (एसएस-41794एल) (आईसी-72796एक्स), ईएमई
विनय कुमार सिंह (एसएस-41796डब्ल्यू) (आईसी-72797ए), ईएमई
जगदेव सिंह यादव (एसएस-41797वाई) (आईसी-72798एच),
ईएमई

गिरि रत्न सिंह (एसएस-41801डब्ल्यू) (आईसी-72801एक्स),
सिग्नल्स

सतीश कुमार (एसएस-41799के) (आईसी-72800पी), सिग्नल्स

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 21 मार्च 2004

पदोन्नति के लिये तारीख - 21 अप्रैल 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद
स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो
अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी
है।

वि एस रानडे
कर्नल

कर्नल सेना सचिव-7

थल सेना विभाग

सं. 241, दिनांक 27 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व
जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर निर्मल सिंह (जेसी-498138डब्ल्यू), पहले सिख, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार मेजर जय कृष्णा नन्दा (जेसी-748755एफ), पहले ईएमई,
19 दिसम्बर 2009

सूबेदार मेजर सोनम नायर एस (जेसी-224780वाई), पहले एमईजी,
27 सितम्बर 2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार तरसेम लाल (जेसी-641871एम), पहले एएससी (साऊथ),
13 जुलाई 2009

सूबेदार चेन्थामरा वी (जेसी-438590एफ), पहले मद्रास, 05 सितम्बर
2009

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-258925एल), पहले आर्टिलरी, 06 दिसम्बर
2009

सूबेदार उदय नारायण सिंह (जेसी-369855एम), पहले सिग्नल्स,
19 दिसम्बर 2009

सूबेदार राजिन्द्र कटोच (जेसी-371139ए), पहले सिग्नल्स, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार अजाद सिंह (जेसी-372303के), पहले सिग्नल्स, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-754098वाई), पहले ईएमई, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार गुरबक्स सिंह (जेसी-239847के), पहले आर्मड, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-519595ए), पहले डोगरा, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-265185के), पहले आर्टिलरी, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-539247ए), पहले कुमांऊ, 19 दिसम्बर
2009

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-267345एक्स), पहले आर्टिलरी,
19 दिसम्बर 2009

सूबेदार उनीक्रिष्णन एम (जेसी-306743एक्स), पहले एमईजी,
20 दिसम्बर 2009

सूबेदार नृपेन्द्र सिन्हा (जेसी-548630ए), पहले असाम, 30 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार तेजिन्दर सिंह (जेसी-419427एम), पहले मैक इन्फैन्ट्री,
25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बिहारी राम (जेसी-842530एक्स), पहले नौसेना,
25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मदन सिंह राजपूत (जेसी-469598पी), पहले राज
राईफल, 27 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मन्धीर सिंह (जेसी-412742ए), पहले पैरा, 15 जुलाई
2009

नायब सूबेदार गुरजन्त सिंह (जेसी-348330पी), पहले बि ई जी
(खडकी), 05 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार मोहम्मद अक्रम (जेसी-592366एक्स), पहले जैक
लार्ड, 10 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार सोमन पिल्लै जी (जेसी-347171डब्ल्यू), पहले बि ई जी
(खडकी), 19 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार दिदार सिंह (जेसी-508446एम), पहले सिख लार्ड,
19 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार ज्ञानेन्द्र सिंह (जेसी-478877एफ), पहले राजपूत,
19 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-498936के), पहले सिख, 19 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार विजय नारायण पान्डे (जेसी-726311एक्स), पहले
एओसी, 19 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-241606एच), पहले आर्मड, 19 दिसम्बर
2009

नायब सूबेदार मनोहर प्रसाद सिंह (जेसी-371395पी), पहले सिग्नल्स,
20 दिसम्बर 2009

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 28 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
मेजर से ले. कर्नल

आईसी सं., नाम आर्म

(आईसी-57343) शमशेर सिंह, एओसी

(आईसी-57344) रबीन्द्र तलाशी, एसी

(आईसी-57345) देव मोहन गोविल, एसी

(आईसी-57346) के रवि चन्द्रन, इंजीनियर्स

(आईसी-57347) हिरोनमाँय भट्टाचार्य, इंजीनियर्स

(आईसी-57348) अमनदीप सिंह गिल, सिग्नल्स

(आईसी-57349) वी कार्तिक, एसी

(आईसी-57350) हेमंत होसरंगदल राना, एएससी

(आईसी-57351) कुलदीप यादव, ईएमई

(आईसी-57353) अखिलेश कुमार बलवान, ईएमई

(आईसी-57354) अमितोश कुमार, आर्टी

(आईसी-57355) अशोक कुमार ठाकुर, इंफैन्ट्री

(आईसी-57356) प्रतीक पराशर, इंफैन्ट्री

(आईसी-57358) विक्रम वसंतरंग लावाड, इंफैन्ट्री

(आईसी-57359) शिव नागेन्द्र सिंह चौहान, आर्टी

(आईसी-57360) संजय कन्नोठ, इंफैन्ट्री

(आईसी-57361) सौरभ कपूर, एडी आर्टी

(आईसी-57362) विनेश कुमार पांडा, आर्टी

(आईसी-57363) पी राजन, एएससी

(आईसी-57364) गुर ईकबाल सिंह गिल, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-57366) देवेन्द्र सिंह नेगी, सिग्नल्स

(आईसी-57367) ब्रिजेश पठानिया, आर्टी

(आईसी-57368) मनजीत सिंह भाऊ, ईएमई

(आईसी-57369) कुलकर्णी राहुल विनायक, सिग्नल्स

(आईसी-57370) विरजेश्वर सिंह भंडारी, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-57371) देवव्रत शाक्तावत, इंफैन्ट्री

(आईसी-57372) विक्रम चतराथ, एडी आर्टी

(आईसी-57373) विजय कुमार गोयत, इंजीनियर्स

(आईसी-57374) विजय जोशी, ईएमई

(आईसी-57375) अली अख्तर जाफरी, आर्टी

(आईसी-57377) रंगा साइ राजन, इंफैन्ट्री

(आईसी-57378) डोमिनिक डेविड लजारू, इंजीनियर्स

(आईसी-57379) आकाश खजांची, इंफैन्ट्री

(आईसी-57380) सुलीन कटारिया, इंफैन्ट्री

(आईसी-57381) जितेन्द्र सिंह, एएससी

(आईसी-57382) करमवीर सिंह, एओसी

(आईसी-57384) लोहित कीरथी, ईएमई

(आईसी-57386) भिडे केदार चन्द्रशेखर, आर्टी

(आईसी-57387) ऋषि यादव, एओसी

(आईसी-57388) ब्रिजेश कुमार सिंह, एवीएन

(आईसी-57389) सत्येन्द्र सिंह, इंफैन्ट्री

(आईसी-57390) रोबिन्स मैथ्यू, इंजीनियर्स

(आईसी-57392) समीर सरीन, सिग्नल्स

(आईसी-57393) राकेश पचौरा, एसी

(आईसी-57394) गुरनरेन्द्र सिंह, एएससी

(आईसी-57395) आशुतोष जोशी, ईएमई

(आईसी-57398) अनुपम आशीष, आर्टी

(आईसी-57399) अमित सेठी, सिग्नल्स

(आईसी-57400) अंकुर बंगा, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-57401) अमिताभ राठी, ईएमई

(आईसी-57402) कोसी अबु अब्राहम वारीकड, इंफैन्ट्री

(आईसी-57403) चिन्मय सेशासाई सतपथी, एएससी

- (आईसी-57404) अनुराग जैन, सिग्नल्स
 (आईसी-57405) मन्जूनथ पाई जी, एडी आर्टी
 (आईसी-57406) अनिल सिरशवाल, ईएमई
 (आईसी-57407) राजेन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-57408) चिव मेहता, आर्टी
 (आईसी-57410) मो. अब्दुल वहाब, एओसी
 (आईसी-57411) अमित सखारे, इंजीनियर्स
 (आईसी-57412) विदवंश प्रदुम्न श्रीकृष्णा, आर्टी
 (आईसी-57413) यश राज गुलिया, एएससी
 (आईसी-57414) बलजीत सिंह नेगी, सिग्नल्स
 (आईसी-57415) विवेक वर्मा, आर्टी
 (आईसी-57416) पंकज भगवती, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57417) जोनदाले विशाल वसंत, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57418) अक्षय चन्द्रन, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57420) कन्वर विक्रम सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57421) अजय लोधे, इंजीनियर्स
 (आईसी-57422) संजय बरसिलिया, आर्टी
 (आईसी-57423) सुमित्रा एम जोशी, ईएमई
 (आईसी-57424) हरपाल सिंह यादव, एएससी
 (आईसी-57426) भागीरथ डे, ईन्ट
 (आईसी-57428) आशु खरे, सिग्नल्स
 (आईसी-57429) रोहित पंत, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57430) उपेन्द्र नाथ राय, आर्टी
 (आईसी-57431) हेमंत कुमार, एओसी
 (आईसी-57432) अवीक मुखर्जिया, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57434) समर प्रावाओ सिंह चौहान, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57435) मनीष सिंह अधिकारी, ईएमई
 (आईसी-57436) चैतन्य कपूर, ईएमई
 (आईसी-57437) गौरव तलवार, इंजीनियर्स
 (आईसी-57438) प्रवीण जी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57439) प्रमोद कुमार मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-57440) बीर बिक्रम, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57441) प्रमोद रमेश भाई अम्बासाना, एओसी
 (आईसी-57442) रन्डोल्फ आईवो वैज, आर्टी
 (आईसी-57444) प्रीत मोहन सिंह कोहली, एडी आर्टी
 (आईसी-57445) अर्जुन के, आर्टी
 (आईसी-57446) राजीथ सीवाई, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57448) विनोद कुमार, एएससी
 (आईसी-57449) आशीष वासुदेव, इंजीनियर्स
 (आईसी-57450) सुनील जी नायक, सिग्नल्स
 (आईसी-57451) मनु मदान, सिग्नल्स
 (आईसी-57452) मते सुहास बलराम, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57453) प्रसून कुमार पांडा, एएससी
 (आईसी-57454) जगप्रीत सिंह बख्शी, इंजीनियर्स
 (आईसी-57455) प्रवीन कुमार, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57457) नितीश कुमार मलिक, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57458) अनुपम भारद्वाज, ईएमई
 (आईसी-57459) मनीष कुमार दूबे, एबीएन
 (आईसी-57460) समीर कालरा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57461) निर्मल पांडे, सिग्नल्स
 (आईसी-57462) शिशिर भारद्वाज, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57463) एमसी मुथन्ना, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57465) रूचिर बाजपाल, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57466) बालक सिंह वर्मा, एडी आर्टी
 (आईसी-57468) अमरजीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-57469) अमित शर्मा, ईएमई
 (आईसी-57470) नीरज श्रीकांत करन, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57471) गौरव बोस, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57472) युगबीर सिंह, एसी
 (आईसी-57473) जीत बहादुर क्षेत्री, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57474) हम्मत वर्मा, आर्टी
 (आईसी-57476) निशांत नवीन, ईएमई
 (आईसी-57477) आनंद मनवाल, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57478) अजीत सिंह, एओसी
 (आईसी-57480) परम पुनीत सिंह रावत, एएससी
 (आईसी-57481) नितिन खन्ना, सिग्नल्स
 (आईसी-57482) बलजीत चिंह चहल, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57483) कपिल ओबराय, ईएमई
 (आईसी-57484) पुनीत रैना, एडी आर्टी
 (आईसी-57487) परम प्रीत सिंह कोचर, इंजीनियर्स

- (आईसी-57488) अमित लांबा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57489) नवीन कुमार बहल, ईएमई
 (आईसी-57490) अमित वर्मा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57491) मयंक चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-57492) जी अरुण कुमार, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57493) गुरविन्दर पाल सिंह जोहल, आर्टी
 (आईसी-57494) भास्कर पंत, एओसी
 (आईसी-57495) अक्षय मनकोटिया, आर्टी
 (आईसी-57496) मोहित थापा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57498) संजय शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57499) अविनाश शर्मा, ईएमई
 (आईसी-57500) भास्कर मैनन, सिग्नल्स
 (आईसी-57501) अमित पांडे, इंजीनियर्स
 (आईसी-57503) पार्थ सारथी नंदा, ईएमई
 (आईसी-57504) सचिन शर्मा, ईएमई
 (आईसी-57505) रवि रोशन सिंह, एओसी
 (आईसी-57506) दिल चरणजीत सिंह, एएससी
 (आईसी-57507) एस श्रीराम, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57508) गुरजिन्दर सिंह गिल, ईएमई
 (आईसी-57510) शिवेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-57511) शिवेन्द्र चौहान, ईएमई
 (आईसी-57514) अभिलाष शाहू, आर्टी
 (आईसी-57516) अतुल कुमार सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57518) मनीष कुमार अस्थाना, एडी आर्टी
 (आईसी-57519) भोला शंकर सिंह, आर्टी
 (आईसी-57521) उपेन्द्र पॉल कनवर, एसी
 (आईसी-57522) अजिन्क्या अनिल जादव, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57523) वी विद्याशंकर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57524) के जयाशंकर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57525) पुष्पिन्दर चिकारा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57526) रवि आनंद, ईएमई
 (आईसी-57527) अनूप ब्राह्मन, ईन्ट
 (आईसी-57529) संदीप जसवाल, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57530) प्रसन्ना वेंकटेश एस, एडी आर्टी
 (आईसी-57531) आदित्य प्रताप सिंह, एएससी
 (आईसी-57533) सुशील कुमार तनवर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57534) नवीन यादव, एएससी
 (आईसी-57536) पजहानीवेलू आर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57537) दीपेन्द्र गुरंग, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57540) युद्धवीर सिंह ढाका, इंजीनियर्स
 (आईसी-57541) हजारनिस जयद्वीप चन्द्रकांत, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57544) मनीष देवांगन, ईएमई
 (आईसी-57546) रवि प्रकाश सिंह, एडी आर्टी
 (आईसी-57547) सतिन्दरजीत सिंह संधार, सिग्नल्स
 (आईसी-57548) शशांक कुशवाहा, आर्टी
 (आईसी-57551) संदीप पाल सिंह चथा, ईएमई
 (आईसी-57552) सुबोध चौधरी, आर्टी
 (आईसी-57553) राजीव कुमार, एओसी
 (आईसी-57554) राजेन्द्र सिंह चौहान, एएससी
 (आईसी-57555) अभिषेक सिन्हा, आर्टी
 (आईसी-57557) वी गौरीनाथ रेड्डी, ईएमई
 (आईसी-57558) बीरेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-57563) अजय माथुर, एडी आर्टी
 (आईसी-57564) मनजीत सिंह कुनेर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57565) करुणाकरन अदेन्चेरी, इंजीनियर्स
 (आईसी-57566) हरिन्दर सिंह मानिक, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57567) नवीन सिद्धु, ईएमई
 (आईसी-57568) सोमिल सिंह, एओसी
 (आईसी-57569) राजीव सिंह, आर्टी
 (आईसी-57571) विनोद कुमार वीके, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57572) रामाचन्द्र क्षेत्री, आर्टी
 (आईसी-57575) मनप्रीत सिंह भिंडर, एडी आर्टी
 (आईसी-57577) हर्ष बी श्रीवास्तव, ईएमई
 (आईसी-57578) विक्रम आर्यंगर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57579) संजीव मिगलानी, एएससी
 (आईसी-57580) राजीव रौतेला, इंजीनियर्स
 (आईसी-57581) अदित विक्रम सिंह, ईएमई
 (आईसी-57582) महेश्वर शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57584) संजीव कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57585) पृथ्वी राज चौहान, इंफैन्ट्री

- (आईसी-57586) नवीन कुमार सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57587) नवीन कुमार चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-57588) विनायक रामास्वामी, इंजीनियर्स
 (आईसी-57590) चिरंजीव दास, इंजीनियर्स
 (आईसी-57591) रंजीत कुमार डिल्लन, आर्टी
 (आईसी-57592) राजीव कुमार नंदा, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57593) हरप्रीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-57594) दीपक जुयाल, सिग्नल्स
 (आईसी-57595) अमित शर्मा, एएससी
 (आईसी-57597) पांडे प्रमोद कुमार एएन, आर्टी
 (आईसी-57598) टीएस आनंद, ईएमई
 (आईसी-57599) कृष्ण कुमार जी, एसी
 (आईसी-57600) गुलशन मोगिया, एडीआर्टी
 (आईसी-57602) विक्रम जीत सिंह कहलौन, एसी
 (आईसी-57604) सैकत कुमार बोस, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57605) विवेक गुलेरिया, एएससी
 (आईसी-57606) आर सेतुमाधवन, आर्टी
 (आईसी-57607) राजेश ब्लोरिया, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57608) प्रवीन कुमार शर्मा, एओसी
 (आईसी-57609) जसवीर सिंह बथ, इंजीनियर्स
 (आईसी-57610) उदय प्रताप सिंह, ईएमई
 (आईसी-57611) अवनीत सिंह कपूर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57612) गणेश रमन, आर्टी
 (आईसी-57613) राजकुमार चाचंरा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57615) अभिनंदन सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57616) सपन कुमार जयसवाल, ईएमई
 (आईसी-57617) सुनील रानौत, इंजीनियर्स
 (आईसी-57618) सुबीन कृष्णन, इंजीनियर्स
 (आईसी-57619) जयंत उपाध्याय, इंजीनियर्स
 (आईसी-57621) अमिताभ श्रीवास्तव, आर्टी
 (आईसी-57622) वीरेश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-57624) जीबेन्दर सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57625) रोमी सिंह लेघा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57626) दिनेश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-57627) ललित मोहन गंधीर, सिग्नल्स
 (आईसी-57628) अमित भारद्वाज, ईएमई
 (आईसी-57629) धीरज कुमार वसल, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57630) आभास के सिंवा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57631) दुष्यन्त कुलश्रेष्ठ, एएससी
 (आईसी-57632) रोहित बेंजामिन साथियाराज टीटूज, एओसी
 (आईसी-57633) अनुज थापा, ईएमई
 (आईसी-57634) महेन्द्र सिंह, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57635) मधु चन्द्र शेखर राव, आर्टी
 (आईसी-57636) पंकज गीते, सिग्नल्स
 (आईसी-57638) आनंद सिंह साजवान, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57639) मनोज कुमार सिंह, एएससी
 (आईसी-57641) गजेन्द्र चन्द ठाकुर, सिग्नल्स
 (आईसी-57642) अवस्थी अमित रमेशचन्द्रा, एडी आर्टी
 (आईसी-57643) शरदूल शर्मा, एसी
 (आईसी-57646) संजीव कुमार भाटी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57647) के के वेंकटरमन, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57649) विवेक कुमार सुनकारी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57650) राजा भटनागर, ईएमई
 (आईसी-57651) जगदीश चन्द्र, इंजीनियर्स
 (आईसी-57652) अजय प्रताब हमीर, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57653) विपुल त्यागी, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57655) ऋषि टयोटिया, ईएमई
 (आईसी-57656) करन कादयान, सिग्नल्स
 (आईसी-57657) प्रणव देव, इंजीनियर्स
 (आईसी-57658) प्रवीन कुमार एस, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57660) राजेश कुमार दास, आर्टी
 (आईसी-57662) लक्ष्मण सिंह राठौर, एसी
 (आईसी-57663) विपुल कुमार, एडी आर्टी
 (आईसी-57664) मनीष कश्यप, एडी आर्टी
 (आईसी-57665) राजेश शर्मा, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57666) अजय कुमार शर्मा, आर्टी
 (आईसी-57668) शिशिर कुमार, एओसी
 (आईसी-57669) समरजीत सिंह बोपारे, आर्टी
 (आईसी-57670) अरविंद कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-57671) पवन दीप सिंह बाल, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57672) शशि भूषण कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-57673) विशाल कौशिक, इंजीनियर्स

- (आईसी-57674) होमांगो भूषण बरुभा, इंजीनियर्स
 (आईसी-57675) सौविक राय, सिग्नल्स
 (आईसी-57677) संदीप मुखर्जी, एओसी
 (आईसी-57678) गौतम राजत्रिषि, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57679) चिन्मय दूबे, ईएमई
 (आईसी-57680) जितेन्द्र तिवारी, ईएमई
 (आईसी-57681) मनीष कुमार डोगरा, एएससी
 (आईसी-57682) प्रोमित गंगाधरन, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57683) मनोज सिंह, एओसी
 (आईसी-57684) कुल भूषण उप्रेती, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57686) सचिल मेहता, आर्टी
 (आईसी-57688) अजय दीप सिंह डाली, आर्टी
 (आईसी-57689) अरुन कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-57690) विकास, एसी
 (आईसी-57691) राजेश मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-57692) चरणजीत सिंह सिद्धू, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57693) हर्ष कुल श्रेष्ठ, इन्ट
 (आईसी-57694) संकल्प जैन, मैक इंफैन्ट्री
 (आईसी-57695) राजेश बाबू मनतेना, एसी
 (आईसी-57696) मनोज कुमार, ईएमई
 (आईसी-57697) सुखदर्शन सिंह बरार, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57699) कुलकर्णी शशांक चन्द्रकांत, इंफैन्ट्री
 (आईसी-57700) संदीप, सिग्नल्स
 (आईसी-57701) विश्वनाथ ए गोखले, आर्टी
 (आईसी-57717) रूद्राक्ष आरती, एईसी
- 06 दिसम्बर 2010--
- (आईसी-59534) सुदेश कुमार ढिल्लन, सिग्नल्स
 (आईसी-59535) गिरीश नागपाल, ईएमई
 (आईसी-59536) उपदेश कुमार शर्मा, ईएमई
 (आईसी-59537) अमरप्रीत नायर, इंजीनियर्स
 (आईसी-59538) कनवलजीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-59540) संजीव सरदाना, सिग्नल्स
 (आईसी-59541) हरमीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-59542) सुशील चन्दवानी, सिग्नल्स
 (आईसी-59543) अशोक कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-59544) रोहित शर्मा, ईएमई
 (आईसी-59545) संसार सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-59546) कमाल पाशा खान, सिग्नल्स
 (आईसी-59547) पवन कुमार, ईएमई
 (आईसी-59548) सुशील कपूर, ईएमई
 (आईसी-59549) विवेक वाजपेयी, सिग्नल्स
 (आईसी-59550) गौरव जैन, इंजीनियर्स
 (आईसी-59551) सामंत ढोडीराज समराव, इंजीनियर्स
 (आईसी-59552) विशाल शर्मा, ईएमई
 (आईसी-59554) अनिल राज टीए, इंजीनियर्स
 (आईसी-59555) अमिताभ निशीत गोटलीभ, ईएमई
 (आईसी-59556) योगेश एन गढ़वाल, इंजीनियर्स
 (आईसी-59557) अय्यर विद्यानाथन एस, इंजीनियर्स
 (आईसी-59558) गौरव बिदानी, सिग्नल्स
 (आईसी-59559) राहुल जयंत, सिग्नल्स
 (आईसी-59560) दीपक राज मसानागत्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-59561) रमनीक ढढवाल, सिग्नल्स
 (आईसी-59562) मोहिन्दर कटियार, ईएमई
 (आईसी-59564) मनोज शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-59566) विनय राव, इंजीनियर्स
 (आईसी-59567) जितेन्द्र पाल सिंह, ईएमई
 (आईसी-59568) गोविंदरेड्डी टी अलाबंडी, सिग्नल्स
 (आईसी-59569) नितिन सहगल, इंजीनियर्स
 (आईसी-59570) हरकमल सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-59571) विक्रम सिंह भदौरिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-59572) नीरज कुमार बिष्ट, सिग्नल्स
 (आईसी-59573) दानी योगेश शरद, इंजीनियर्स
 (आईसी-59574) रुपविन्द्र सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-59575) कुलवीर सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-59576) संजीव कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-59577) विजय गन्जु, ईएमई
 (आईसी-59578) दीपक शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-59579) अकुला बालाकृष्णा, इंजीनियर्स
 (आईसी-59580) दिनेश कुमार भद्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-59581) मनु भारत चौधरी, सिग्नल्स
 (आईसी-59582) अजय लुम्बा, सिग्नल्स

(आईसी-59583) धीरज जोशी, इंजीनियर्स

(आईसी-59584) सारु कपूर, इंजीनियर्स

(आईसी-59585) राहुल गर्ग, इंजीनियर्स

(आईसी-59586) यादबेन्द्र सिंह, ईएमई

(आईसी-59587) एल सुब्रह्मण्यम, ईएमई

(आईसी-59588) रेंजू अब्राहम, सिग्नल्स

(आईसी-59589) पंकज परीक, सिग्नल्स

(आईसी-59591) भगवान तनवीर इस्माइल, इंजीनियर्स

(आईसी-59592) अजय कुमार गुप्ता, ईएमई

(आईसी-59593) दीपक कुमार गुप्ता, सिग्नल्स

(आईसी-59594) वरुण मल्होत्रा, ईएमई

(आईसी-59595) रंजीत रवीन्द्रन, इंजीनियर्स

(आईसी-59597) वी कानन, ईएमई

(आईसी-59598) सम्राट मोहंता, ईएमई

--11 दिसम्बर 2010--

(आईसी-55693) हरनेक सिंह, एओसी, 25 अक्टूबर 2010

(आईसी-55733) शांतनु चक्रवर्ती, इन्ट, 25 अक्टूबर 2010

(आईसी-56314) राजबीर सिंह, सिग्नल, 07 नवम्बर 2010

(आईसी-56317) नरेश कुमार, इंजीनियर्स, 07 नवम्बर 2010

(आईसी-56753) पंकज दुग्गल, एओसी, 25 अक्टूबर 2010

(आईसी-57149) गोला किरन, सिग्नल, 25 अक्टूबर 2010

(आईसी-57230) अशोक कुमार के, एसी, 25 अक्टूबर 2010

(आईसी-57433) बी केशव कुमार वामशी, इन्फैंट्री, 06 दिसम्बर 2010

(एसएल-05065) हृदयानंद शर्मा, क्यूएम, 13 दिसम्बर 2010

(एसएल-05096) चिदानंदा प्रभु बी, साईफर, 13 दिसम्बर 2010

राहुल शर्मा

ले कर्नल

ए एम एस 8 बी

सं. 243, दिनांक 28 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले कर्नल बनाया जाता है

मेजर एस जे बरुहा, टीए(एम)-1186, (एएमसी टीए), 30 जून 2010

मेजर एस के भुयान, टीए(एम)-1187, (एएमसी टीए), 30 जून 2010

मेजर एच के भट्ट्याचार्या, टीए(एम)-1188, (एएमसी टीए), 30 जून 2010

मेजर एस के लाहा, टीए(एम)-1182, (रेलवे टीए), 06 दिसम्बर 2009

जय राज

उप सचिव

सेना शाखा

सं. 244, दिनांक 28 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम एवं आर्म

(आईसी-64393) सुरेश डी सिंह डडवाल, एसी

(आईसी-64394) अमन दीप चौहान, ईएमई

(आईसी-64395) बंसंत सेवादा, एसी

(आईसी-64396) अरुण कुमार सिंह, मैक

(आईसी-64397) कल्पेन्दु तेवारी, आर्टी

(आईसी-64398) दीपक सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स

(आईसी-64399) प्रवीण कुमार तोमर, इन्फैंट्री

(आईसी-64400) गगनदीप सपरा, मैक

(आईसी-64401) गोकुलदासन पी, एओसी

(आईसी-64402) जे कृष्णा कल्याण, आर्टी

(आईसी-64403) असीम कुमार पांडा, इन्फैंट्री

(आईसी-64404) आनंदी सिंह, इन्फैंट्री

(आईसी-64405) बी संतोष बाबू, इन्फैंट्री

(आईसी-64406) सतीश कुमार मोहापात्रा, इन्फैंट्री

(आईसी-64407) विवेक कुमार, इन्फैंट्री

(आईसी-64408) शिवचरण भारद्वाज, इन्फैंट्री

(आईसी-64409) सुगंध विकास, इन्फैंट्री

(आईसी-64410) राजकुमार महाजन, इन्फैंट्री

(आईसी-64412) विकास झाझरिया, इन्फैंट्री

(आईसी-64413) उज्ज्वल कुमार, इन्फैंट्री

(आईसी-64414) पाटील अरुण नामदेव, एएससी

(आईसी-64416) जितेश आर वरियर, एडी

- (आईसी-64417) गुरपाल सिंह जामवाल, इन्फैंट्री
 (आईसी-64418) चेतन पांडेय, इन्फैंट्री
 (आईसी-64421) अनुज शर्मा, आर्टी
 (आईसी-64422) टी जेया कुमार, आर्टी
 (आईसी-64423) दिलीप सिंह राठौर, इन्फैंट्री
 (आईसी-64424) सुकिन्दर, इन्फैंट्री
 (आईसी-64425) दीपक बरटवाल, एडी
 (आईसी-64427) जोई वरघोस, एओसी
 (आईसी-64428) परिहार आनंद गणेश, आर्टी
 (आईसी-64429) जयंत पटनायक, इन्फैंट्री
 (आईसी-64430) मनीष कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64431) विशाल शर्मा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64432) वरूण दलाल, एओसी
 (आईसी-64433) अर्पण दीक्षित, इन्फैंट्री
 (आईसी-64434) अनूप कुमार, एएससी
 (आईसी-64435) आलोक बिष्ट, इन्फैंट्री
 (आईसी-64436) कमल सजगोत्रा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64437) कबुल त्यागी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64438) चैतन्या पटनायक, एसी
 (आईसी-64439) बेडगे केदार अनिल, आर्टी
 (आईसी-64440) अजीत कुमार मेहरा, एएससी
 (आईसी-64441) गौरव पंवार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64442) शैलेन्दर सिंह नेगी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64443) समीर पुनयानी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64444) अनुराग सिंह यादव, आर्टी
 (आईसी-64445) बालासाहेब सुदाम खंडारे, इन्फैंट्री
 (आईसी-64446) अंबुजक्ष त्रिपाठी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64447) नरेन्द्र प्रताप सिंह राघव, इन्फैंट्री
 (आईसी-64448) गोपनेश्वर सापम, इन्फैंट्री
 (आईसी-64449) सौरभ शर्मा, मैक
 (आईसी-64450) प्रासून गब्रयाल, इन्फैंट्री
 (आईसी-64451) हिमांशु बहुगुणा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64452) अभिषेक, ईएमई
 (आईसी-64453) हितेश कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64454) प्रणव कुमार, आर्टी
 (आईसी-64455) अंबुज राय, इन्फैंट्री
 (आईसी-64456) दुर्गेश प्रसाद उपाध्याय, आर्टी
 (आईसी-64457) उज्ज्वल दीक्षित, इन्फैंट्री
 (आईसी-64458) मनोज सिंह रावत, इन्फैंट्री
 (आईसी-64459) प्रशांत प्रताप सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64460) आशीष स्वरूप, इन्फैंट्री
 (आईसी-64461) अरविन्द कुमार, एओसी
 (आईसी-64462) शिखर शर्मा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64463) स्टालिन कुमार मोहन्ती, इन्फैंट्री
 (आईसी-64464) कुलदीप कुमार, मैक
 (आईसी-64465) मल्लिकार्जुन एस नवालगट्टी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64466) वरूण शर्मा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64467) कदम संदेश सुरेश, इन्फैंट्री
 (आईसी-64468) अजय कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64469) भट मधुकर गणपती, इन्फैंट्री
 (आईसी-64470) अनुराग सेन, इन्फैंट्री
 (आईसी-64471) गौरव दतार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64472) अंकुर शुक्ला, इन्फैंट्री
 (आईसी-64473) रजत परमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64474) जसविंदर सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64475) राज बहादुर थापा, एडी
 (आईसी-64476) केशव कुमार छेत्री, एएससी
 (आईसी-64477) जसवंत कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64478) चन्द्रेश चौधरी, आर्टी
 (आईसी-64479) अभय प्रताप सिंह, आर्टी
 (आईसी-64480) दिग्विजय सिंह, आर्टी
 (आईसी-64481) इबनदीप रंधावा, एसी
 (आईसी-64482) अमिस्स श्रीवास्तव, इन्फैंट्री
 (आईसी-64483) अमृत पाल सिंह, आर्टी
 (आईसी-64484) अजय उपाध्याय, एओसी
 (आईसी-64485) दिपांजन सेनगुप्ता, इन्फैंट्री
 (आईसी-64486) मैबम निन्गथेम, इन्फैंट्री
 (आईसी-64487) दिलीप शेखर, इन्फैंट्री

(आईसी-64488) बिजेन्द्र सिंह अहलावत, एसी	(आईसी-64523) नवदीप कुमार शर्मा, एएससी
(आईसी-64489) शर्मा मयंक शशि प्रकाश, इन्फैंट्री	(आईसी-64524) अजीत एस, इन्फैंट्री
(आईसी-64490) अरुण सतयान, आर्टी	(आईसी-64525) अमित कुमार सिनसिनवार, एएससी
(आईसी-64491) मयंक, इन्फैंट्री	(आईसी-64526) अरूण तोम सेबसटियन, इन्फैंट्री
(आईसी-64492) तरंग पांडेय, मैक	(आईसी-64527) निखिल शर्मा, इंजीनियर्स
(आईसी-64493) थियम इबुनगोचौबा लुवांग, इन्फैंट्री	(आईसी-64528) कुश साही, मैक
(आईसी-64495) जितेन्द्र सिंह निरंजन, एएससी	(आईसी-64529) दलीप डुडी, इन्फैंट्री
(आईसी-64496) जोशुआ जॉन, इन्फैंट्री	(आईसी-64530) भानु चंद्र नारायणम, इन्फैंट्री
(आईसी-64497) शोभित तिवारी, इन्फैंट्री	(आईसी-64531) संदीप सिंह, इन्फैंट्री
(आईसी-64498) गौतम निशांत, इन्फैंट्री	(आईसी-64532) राहुल पांडेय, एएससी
(आईसी-64499) अभिषेक कुमार, इन्फैंट्री	(आईसी-64533) पियुश भारद्वाज, इन्फैंट्री
(आईसी-64500) गौरव आईधानी, एडी	(आईसी-64534) प्रदीप कुमार चहार, इन्फैंट्री
(आईसी-64501) के मनोज कुमार, इन्फैंट्री	(आईसी-64535) अरुण प्रताप सिंह, इन्फैंट्री
(आईसी-64502) विशाल साह, इंटर	(आईसी-64536) शिंदेपाटिल सचिनकुमार प्रदीपकुमार, इन्फैंट्री
(आईसी-64503) तुषार पिपलानी, एएससी	(आईसी-64537) अभिमन्यु बाजपेई, इन्फैंट्री
(आईसी-64504) द्विवेदी नीलेश विश्वनाथ, आर्टी	(आईसी-64538) विवेक जैयसवाल, इन्फैंट्री
(आईसी-64505) विवेक अहलावत, एसी	(आईसी-64539) विशाल चौपड़ा, एओसी
(आईसी-64506) शेखर चौधरी, इन्फैंट्री	(आईसी-64540) विक्रम सिंह, इन्फैंट्री
(आईसी-64507) मोहित प्राशर, इन्फैंट्री	(आईसी-64541) रादा उमा महेश्वर राव, आर्टी
(आईसी-64508) सैयद अशरत अली, एएससी	(आईसी-64542) अर्जुन सिंह, एसी
(आईसी-64509) निखिल दुबे, इन्फैंट्री	(आईसी-64543) प्रभाकर घिलदियाल, एओसी
(आईसी-64510) अंकुश सिंह कश्यप, इन्फैंट्री	(आईसी-64544) अमित चमोली, इन्फैंट्री
(आईसी-64511) मनधारे सुहास पंधारीनाथ, इन्फैंट्री	(आईसी-64545) दिनेश कुमार जेना, इन्फैंट्री
(आईसी-64512) विकास कुमार त्रिपाठी, इन्फैंट्री	(आईसी-64546) सुकुमार सौरभ सरन, इन्फैंट्री
(आईसी-64513) अभिषेक श्रीवास्तव, इन्फैंट्री	(आईसी-64547) राजीव ढिंगरा, इन्फैंट्री
(आईसी-64514) आशुतोष मंडल, आर्टी	(आईसी-64548) अर्पण एलेक्सजेंडर, एडी
(आईसी-64515) संदीप शर्मा, आर्टी	(आईसी-64549) नवल शर्मा, इन्फैंट्री
(आईसी-64516) नायर प्रभात अशोक कुमार, एओसी	(आईसी-64550) अतुल सिंह जसरोटिया, एडी
(आईसी-64517) प्रथा प्रतीम राय चौधरी, इन्फैंट्री	(आईसी-64551) प्रासून वत्स, आर्टी
(आईसी-64518) विवेक चटर्जी, इन्फैंट्री	(आईसी-64552) सुकांत बागची, एएससी
(आईसी-64519) साहिल ठाकुर, आर्टी	(आईसी-64553) रितेश कुमार आर्या, आर्टी
(आईसी-64520) दिग्विजय सिंह सोलंकी, इन्फैंट्री	(आईसी-64554) सुरजीत कुमार, सिग्नल्स
(आईसी-64521) सुरेश बाबू डी, इंटर	(आईसी-64555) तरूण शर्मा, इन्फैंट्री
(आईसी-64522) अजीत कुमार सिंह, आर्टी	(आईसी-64556) मुकेश तनेजा, इन्फैंट्री

- (आईसी-64557) नीरज धुल्ल, एएससी
 (आईसी-64558) विमल पांडेय, एओसी
 (आईसी-64559) दीप कौशिक, इन्फैंट्री
 (आईसी-64560) पवन थापा, आर्टी
 (आईसी-64561) प्रेम विलसन, इन्फैंट्री
 (आईसी-64562) सुनीलकुमार शिवपुजन शर्मा, इंटर
 (आईसी-64563) अनुपम हजेला, इन्फैंट्री
 (आईसी-64564) सौरभ शर्मा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64565) तरुण गायेल, इन्फैंट्री
 (आईसी-64566) सुबोध कौशिक, आर्टी
 (आईसी-64567) मिश्रा गौरव, इन्फैंट्री
 (आईसी-64568) मनोज पी आर, इन्फैंट्री
 (आईसी-64569) तरुण त्यागी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64570) अभिषेक कुमार शर्मा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64571) दिनील जॉर्ज, आर्टी
 (आईसी-64572) रोशन लाल, एएससी
 (आईसी-64573) सुनील कुमार नौटियाल, मैक
 (आईसी-64575) कोहली राहुल, इन्फैंट्री
 (आईसी-64576) सुधा अनिरुद्धसिंह जामसिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64578) विभु शर्मा, आर्टी
 (आईसी-64579) विक्रम एम डबराई, इन्फैंट्री
 (आईसी-64580) नरेश सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64581) अभिषेक अत्री, एओसी
 (आईसी-64582) रवि दत्ता, इन्फैंट्री
 (आईसी-64583) सी नरेन बाबू, इन्फैंट्री
 (आईसी-64584) अभय राज सिंह मान, एसी
 (आईसी-64585) अजय सिंह कुशावाह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64586) मिथिलेश कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64587) घोरपडे सुमीत शंकरजीराव, इन्फैंट्री
 (आईसी-64589) नीरज शर्मा, आर्टी
 (आईसी-64590) नीरज व्यास, इन्फैंट्री
 (आईसी-64591) आपटे निकेतन अशोक, इन्फैंट्री
 (आईसी-64592) ललित भट्ट, इन्फैंट्री
 (आईसी-64593) अशीष कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64594) नितिन कुमार, इन्फैंट्री
 (आईसी-64596) निखिल अल्लेन सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64597) अभिषेक पांडेय, एडी
 (आईसी-64598) हरप्रीत सिंह छटवाल, एएससी
 (आईसी-64599) लोकेश धिमन, इन्फैंट्री
 (आईसी-64600) वरुण लूथरा, जेएजी
 (आईसी-64601) तनूल सिंघल, मैक
 (आईसी-64602) अतुल दिवाकर, इन्फैंट्री
 (आईसी-64603) सुमेश स्टेनले लोबो, एओसी
 (आईसी-64604) मोहम्मद अली, आर्टी
 (आईसी-64605) अरविन्द कुमार सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64606) विवेक साहनी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64607) नवीन कुमार सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64608) रितेश रस्तोगी, इन्फैंट्री
 (आईसी-64609) जसोन जेकब, एसी
 (आईसी-64610) विकल्प शर्मा, आर्टी
 (आईसी-64611) विवेक सिरौही, एसी
 (आईसी-64612) चिंगथम मोहनदास सिंह, इन्फैंट्री
 (आईसी-64613) सुनील कुमार तिवारी, आर्टी
 (आईसी-64614) परथ बरूआ, इन्फैंट्री
 (आईसी-64616) धीरज दत्ता, आर्टी
 (आईसी-64617) अमूल्य कृष्ण मिश्रा, इन्फैंट्री
 (आईसी-64618) येरी वरुण श्रीकांत, मैक
 (आईसी-64619) हिमांशु ठाकरान, इन्फैंट्री
 (आईसी-64620) रवि जसवाल, इन्फैंट्री
 (आईसी-64621) पृथ्वी चंडेले, आर्टी
 (आईसी-64622) जगदीप नौटियाल, ईएमई
 (आईसी-64623) गौरव त्रिपाठी, आर्टी
 (आईसी-64624) नरेन्द्र सिंह, एसी
 (आईसी-64625) पियुश कुमार सनवाल, एडी
 (आईसी-64626) संजीव नगर, एएससी
 (आईसी-64627) सलेश सोमराज, एओसी
 (आईसी-64628) अंकित प्रकाश, एसी
 (आईसी-64629) अनुपम, इन्फैंट्री

- (आईसी-64630) मोहित चंडोला, इन्फैंट्री
- (आईसी-64631) लिमये मयुरेश जगदीश, इन्फैंट्री
- (आईसी-64632) स्वर्णा संदीप मोहंती, इन्फैंट्री
- (आईसी-64633) पराग छिब्बर, इंजीनियर्स
- (आईसी-64634) सचिन नरवाल, एएससी
- (आईसी-64635) गौतम गहरवाल, इन्फैंट्री
- (आईसी-64636) वी सुरेश, इन्फैंट्री
- (आईसी-64637) देव शाही, इन्फैंट्री
- (आईसी-64638) अभय चंदन चौधरी, आर्टी
- (आईसी-64639) आदित्य शुक्ला, एओसी
- (आईसी-64640) रोहित ओहलान, इन्फैंट्री
- (आईसी-64641) गुरमोहिन्दर सिंह, इन्फैंट्री
- (आईसी-64642) संयोग सिंह पटियाल, एओसी
- (आईसी-64643) थोर्ट पेटर प्रकाश, इन्फैंट्री
- (आईसी-64644) सिद्धार्थ चंसोरिया, एसी
- (आईसी-64645) रमन तिवारी, इन्फैंट्री
- (आईसी-64646) वैभव सिंह, एएससी
- (आईसी-64647) पवन टोकस, इन्फैंट्री
- (आईसी-64648) शोवन कुमार संत्रा, आर्टी
- (आईसी-64649) भालिन्दर सिंह, एओसी
- (आईसी-64650) संतोष कुमार घोष, इन्फैंट्री
- (आईसी-64651) अनुभव सिंह, इन्फैंट्री
- (आईसी-64652) दक्ष माथुर, आर्टी
- (आईसी-64653) राज चैतन्या अड्डागाडा, इन्फैंट्री
- (आईसी-64654) विराट ओबेराय, इन्फैंट्री
- (आईसी-64655) सिद्धार्थ चक्रवर्ती, इन्फैंट्री
- (आईसी-64656) साकेत कुमार मिश्रा, इन्फैंट्री
- (आईसी-64657) तरुण वत्स, इन्फैंट्री
- (आईसी-64658) वेद प्रकाश मिश्रा, एडी
- (आईसी-64659) अभिषेक चक्रवर्ती, इंजीनियर्स
- (आईसी-64660) तनमय मोहिले, इन्फैंट्री
- (आईसी-64661) अभिजीत गुरू, ईएमई
- (आईसी-64662) रजनीश कुमार, मैक
- (आईसी-64663) नितिन पन्डोह, आर्टी
- (आईसी-64664) हेमेन्द्र देव भाटिया, आर्टी
- (आईसी-64665) विनय कुमार पनवार, आर्टी
- (आईसी-64666) सुधांशु ध्यानी, इन्फैंट्री
- (आईसी-64667) अभिषेक सिंह, मैक
- (आईसी-64668) रविन्द्र सिंह चहल, इन्फैंट्री
- (आईसी-64669) मधुकर सिसोदिया, इन्फैंट्री
- (आईसी-64670) सुशील कुमार, इन्फैंट्री
- (आईसी-64671) अभिषेक राय, एओसी
- (आईसी-64672) अनुपम गर्ग, एएससी
- (आईसी-64673) धनंजय सिंह राठौर, एसी
- (आईसी-64674) कार्तिकेय सिंह, इन्फैंट्री
- (आईसी-64676) संदीप राणा, सिग्नल्स
- (आईसी-64677) शशांक शरद जोशी, सिग्नल्स
- (आईसी-64678) नागेन्द्र कुमार, इंजीनियर्स
- (आईसी-64679) गुनमीत सिंह मल्लान, ईएमई
- (आईसी-64680) राजीव कुमार राय, सिग्नल्स
- (आईसी-64681) के सेंथिल कुमार, इंजीनियर्स
- (आईसी-64682) संतोष कुमार, ईएमई
- (आईसी-64683) प्रणव मिश्रा, इंजीनियर्स
- (आईसी-64684) अमित कुमार तिवारी, इंजीनियर्स
- (आईसी-64685) पुनीत ससान, इंजीनियर्स
- (आईसी-64687) महेश शिवशेट्टी हल्लाले, इंजीनियर्स
- (आईसी-64688) ऋषभ कुमार जैन, इंजीनियर्स
- (आईसी-64689) रजत बहल, ईएमई
- (आईसी-64690) अपूर्व वारियार, इन्फैंट्री
- (आईसी-64691) शिव कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
- (आईसी-64692) विक्रान्त बोरा, इंजीनियर्स
- (आईसी-64693) अंकित सिंघल, सिग्नल्स
- (आईसी-64694) मिहिर घौड़, ईएमई
- (आईसी-64695) सुमित गुप्ता, सिग्नल्स
- (आईसी-64696) राकेश रावत, इन्फैंट्री
- (आईसी-64698) अरविन्द कुमार, सिग्नल्स
- (आईसी-64699) सुमित सिंह, ईएमई
- (आईसी-64701) संदीप भनोट, इन्फैंट्री

- (आईसी-64702) मोहम्मद राजा इसराईल, ईएमई
- (आईसी-64703) अंकुर बत्रा, ईएमई
- (आईसी-64704) मृणाल मेहता, सिग्नल्स
- (आईसी-64705) देवेन्द्र कुमार पांडे, सिग्नल्स
- (आईसी-64706) अमित मलिक, इन्फैंट्री
- (आईसी-64707) अमित छैत्री, ईएमई
- (आईसी-64708) प्रतीक प्रताप जौहरी, इन्फैंट्री
- (आईसी-64709) विकास साहा, सिग्नल्स
- (आईसी-64710) अभिमन्यु कादियान, इंजीनियर्स
- (आईसी-64711) रवि मखिजा, ईएमई
- (आईसी-64712) अशीष कुमार, इंजीनियर्स
- (आईसी-64713) पिशरोदय अरुण बालाकृष्णन, इंजीनियर्स
- (आईसी-64714) ललित कनसल, सिग्नल्स
- (आईसी-64715) शैलेन्द्र सिंह अहलावत, इन्फैंट्री
- (आईसी-64716) नवीन कुमार चौधरी, इंजीनियर्स
- (आईसी-64717) गौरव, ईएमई
- (आईसी-64718) हिमांशु छौंकर, ईएमई
- (आईसी-64719) राजेन्द्र महावीर जमालपुरे, सिग्नल्स
- (आईसी-64720) अरविन्दम शेखर चौधरी, ईएमई
- (आईसी-64722) अजीत बाबू यादव, इंजीनियर्स
- (आईसी-64723) किरन कुमार सोमसुन्दर, इंजीनियर्स
- (आईसी-64724) अवध अविनाश अशोक राव, इंजीनियर्स
- (आईसी-64725) अर्पण ग्रोवर, ईएमई
- (आईसी-64727) अंकुर त्यागी, सिग्नल्स
- (आईसी-64728) खत्री विनायक शशिकांत, सिग्नल्स
- (आईसी-64729) प्रकाश रौट, ईएमई
- (आईसी-64730) कुशल शर्मा, ईएमई
- (आईसी-64731) कांबले रितिश भीमराव, इन्फैंट्री
- (आईसी-64732) क्षितिज किशोर शर्मा, इंजीनियर्स
- (आईसी-64733) के विनोद, सिग्नल्स
- (आईसी-64734) सरवेश रंजन, इंजीनियर्स
- (आईसी-64735) सागर थापा, इंजीनियर्स
- (आईसी-64736) सुधीर पायल, इंजीनियर्स
- (आईसी-64739) हरीश प्रकाश, सिग्नल्स
- (आईसी-64756) अविनाश रावल, आईसी
- (आईसी-64760) बिपिन कुमार शुक्ला, आईसी
- (आईसी-64790) के अनुप नायर, आईसी
- (आईसी-64807) लालनुन सैमा, आईसी
- 10 दिसम्बर 2010
- (आईसी-68925) इरोम चिमखैंगबा, इंजीनियर्स
- (आईसी-68926) अनाजीत गांगुली, सिग्नल्स
- (आईसी-68927) सूर्या सूद, सिग्नल्स
- (आईसी-68928) रतन दीप सीयोल, ईएमई
- (आईसी-68929) अमरदीप सिंह मुल्लानी, ईएमई
- (आईसी-68930) ध्रुव शंकर सक्सेना, इंजीनियर्स
- (आईसी-68931) विवेक मलिक, इंजीनियर्स
- (आईसी-68933) सतिन्दर खोला, एएडी
- (आईसी-68934) गगनदीप हंसपाल, ईएमई
- (आईसी-68936) आशीष भारद्वाज, इंजीनियर्स
- (आईसी-68937) आकाश त्रिपाठी, ईएमई
- (आईसी-68938) पाटिल उमेश अशोक, इंजीनियर्स
- (आईसी-68939) सुकरीत सिंह सिंधू, एसी
- (आईसी-68940) नवीन कुमार, इंजीनियर्स
- (आईसी-68941) जेटा पुन्डलिकराव ढोंगडे, इंजीनियर्स
- (आईसी-68942) अभिनव यादव, इंजीनियर्स
- (आईसी-68943) ठक्कर ध्रुव दीपक, ईएमई
- (आईसी-68945) पी श्रीनिवासन, सिग्नल्स
- (आईसी-68946) नवलीन सिंह राज पाल, सिग्नल्स
- (आईसी-68948) नावेद अख्तर, ईएमई
- (आईसी-68949) भापकर अभिषेक जगन्नाथ, सिग्नल्स
- (आईसी-68950) शरथ शंकर, इंजीनियर्स
- (आईसी-68951) मनू छाबरा, इंजीनियर्स
- (आईसी-68952) नवीन कुमार शर्मा, ईएमई
- (आईसी-68954) जगदीप सिंह, सिग्नल्स
- (आईसी-68955) सुमित दुबे, ईएमई
- (आईसी-68956) अश्वनी सुथार, सिग्नल्स
- (आईसी-68957) आशीष रहेजा, सिग्नल्स
- (आईसी-68959) प्रदीप कुमार, ईएमई

- (आईसी-68960) जयंत कदम, इंजीनियर्स
 (आईसी-68961) अनंत वैभव शर्मा, ईएमई
 (आईसी-68962) अश्वनी कुमार, ईएमई
 (आईसी-68964) नागर विशाल विठलदास, इंजीनियर्स
 (आईसी-68966) सुमित मिश्रा, सिग्नल्स
 (आईसी-68967) अशोक कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-68970) प्रवीण कुमार नायर, इंजीनियर्स
 (आईसी-68971) डी शिवा कुमार, ईएमई
 (आईसी-68972) अनिल कुमार साहु, सिग्नल्स
 (आईसी-68973) संदीप खासा, ईएमई
 (आईसी-68974) मनीष शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-68975) दीपक मनहास, ईएमई
 (आईसी-68977) सुरेन्द्र वर्मा, ईएमई
 (आईसी-68978) सुमन कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-68980) प्रमोद शेनाय आर, सिग्नल्स

-- 11 दिसम्बर 2010

राहुल शर्मा
 ले कर्नल
 एएमएस 8बी

सं. 245, दिनांक 29 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना
 प्रादेशिक कमीशन
 मेजर बनाया जाता है

कैप्टन आर रघुरमण (टीए-42261) (इंजीनियर टीए), 16 दिसम्बर 2004

जय राज
 उप सचिव

सेना शाखा

सं. 246, दिनांक 29 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना अधिकारी को सामने देय तिथि से पदोन्नती करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन
 स्काडून लीडर के पद पर

सचिन राठौर (एमएस-15390एल)/(एफ-28868आर)/(एमआर-09093एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 27 दिसम्बर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

चेतन सी पाटिल (एमएस-15486एन)/(एफ-28870एल)/(एमआर-09076एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

भेन्डिगीरी शिरीष रमेश (एमएस-15485एल)/(एफ-28869टी)/(एमआर-09075वाई), एएमसी, 22 सितम्बर 2008

अश्वनी कुमार (एमएस-15483ए)/(एफ-28878ए)/(एमआर-09072एल), एएमसी, 22 जनवरी 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 अगस्त 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

दीपक कुमार बोरो (एमएस-15173पी)/(एफ-28409एस)/(एमआर-09064एम), एएमसी, 16 जून 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 अक्टूबर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अजय कुमार (एमएस-14863एम)/(एफ-27663एन)/(एमआर-09084ए), एएमसी, 11 अगस्त 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 06 नवम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अजय कुमार (एमएस-14863एम)/(एफ-27663एन)/(एमआर-09084ए), एएमसी, 11 अगस्त 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

शैलेन्द्र सिंह (एमएस-15090के)/(एफ-28385टी)/(एमआर-09077के), एएमसी, 17 सितम्बर 2006

इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
 ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

यल सेना विभाग

सं. 247, दिनांक 29 अप्रैल 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
 रक्षा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में
 सूबेदार जागीर सिंह (जेसी-193243के), 01 मार्च 2011

स्थायी सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) सुरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-841531एन), 01 मार्च 2011

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-841592एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार कैलाश कुमार पाण्डे (जेसी-841625एल), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-841643एन), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार रामजी लाल (जेसी-841648एम), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-841649पी), 01 मार्च 2011

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) रतन सिंह (जेसी-842033एन), 01 मार्च 2011

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना मुख्यालय

सं. 248, दिनांक 2 मई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) बिरबल सिंह भुदानिया (जेसी-348672एच), 03 जून 2010

सूबेदार (जीडी) राम शंकर (जेसी-348807वाई), 01 अगस्त 2010

सूबेदार (जीडी) अब्दुल गफर (जेसी-348921डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) मलकीत सिंह (जेसी-349060एक्स), 15 अक्टूबर 2010

सूबेदार (जीडी) मोहम्मद शरीफ (जेसी-349096डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2010

सूबेदार (जीडी) असिक अहमद (जेसी-349092ए), 03 नवम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) जाधव देवीदास रंगराव (जेसी-349106पी), 11 नवम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) हरी सिंह (जेसी-349123पी), 02 दिसम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) हरदेव सिंह रणधावा (जेसी-349125ए), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) गुलवंत सिंह (जेसी-349079डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2010

सूबेदार (जीडी) आनंद सिंह (जेसी-347982एफ), 03 जनवरी 2011

सूबेदार मेजर क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क एसडी) प्रेम चंद (जेसी-348232पी), 06 अगस्त 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) शिशुपाल सिंह (जेसी-348385वाई), 02 अगस्त 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) राजबली (जेसी-348532डब्ल्यू), 09 अगस्त 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) राम नाथ (जेसी-348543एच), 02 अगस्त 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) श्रीपाल (जेसी-348545एन), 13 अगस्त 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) हरस्वरूप सिंह वर्मा (जेसी-348531एन), 03 अक्टूबर 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) राम भगत सिंह (जेसी-348590ए), 14 अक्टूबर 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) चंद्र शंखर उपाध्याय (जेसी-348608एल), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) गिरीश चंद्र बेलवाल (जेसी-348648एम), 09 नवम्बर 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) कलम सिंह (जेसी-348650के), 05 नवम्बर 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) राम करन कौशिक (जेसी-348673एल), 03 जनवरी 2010

सूबेदार (क्लर्क एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) विजय पाल सिंह (जेसी-350201एन), 06 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) घनश्याम सिंह (जेसी-350203वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) सरनाम सिंह (जेसी-351253डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) अशोक कुमार (जेसी-350292एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) रमेश सिंह तरयाल (जेसी-351202डब्ल्यू), 24 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) प्रताप सिंह (जेसी-350279वाई), 02 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) लक्ष्मी शंकर (जेसी-350280एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) वीरेन्द्र सिंह (जेसी-350294एन), 04 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) राजन सी (जेसी-350305पी),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) अशोक माने (जेसी-350380वाई),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) गौतम कुमार बेरा (जेसी-350320के),
01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) महेन्द्र थामी (जेसी-350323एक्स),
01 मार्च 2011

सूबेदार क्लर्क जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) धर्मवीर शर्मा (जेसी-350179एन),
02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दया राम (जेसी-349766एम),
04 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) अनिल कुमार शर्मा
(जेसी-350135डब्ल्यू), 04 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम नारायण सिंह यादव
(जेसी-350167वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) श्यामल कुमार बिस्वास
(जेसी-350168एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) देवेन्द्र सिंह भदोरिया
(जेसी-350181एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राज कुमार (जेसी-350169के),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेन्द्र कुमार (जेसी-350190एम),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मेहर चंद (जेसी-350188पी),
08 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महेन्द्र सिंह (जेसी-350189एक्स),
09 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिव कुमार राम (जेसी-350199एफ),
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-350200एल),
07 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) केशव कुमार (जेसी-350260ए),
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) हरदेव सिंह (जेसी-350204एफ),
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) तिलक धारी वी (जेसी-350219के),
06 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रविन्द्र सिंह तलान (जेसी-350246एन),
03 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) गुलजार राम (जेसी-350220वाई),
01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) भगवान दास (जेसी-350293एल),
01 जनवरी 2011

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) बघेल सिंह (जेसी-350520ए), 24 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-350509एफ), 16 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) जाधव सुरेश दगड (जेसी-350519एल),
06 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) युसुफ अली (जेसी-350515पी), 15 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) केजले पोपठ रामचंद्र (जेसी-350530के),
16 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सुखदेव सिंह (जेसी-350511वाई), 27 जुलाई
2010

नायब सूबेदार (जीडी) करमजीत सिंह (जेसी-350257ए), 15 अगस्त
2010

नायब सूबेदार (जीडी) शिव जनम प्रसाद (जेसी-350343एल),
15 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (जीडी) साधु सिंह (जेसी-350523एन), 01 अगस्त
2010

नायब सूबेदार (जीडी) पवार संजय दत्तात्रय (जेसी-350525वाई),
19 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (जीडी) टोमी के यू (जेसी-350524डब्ल्यू),
05 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (जीडी) शिंदे मधुकर राव साहेब (जेसी-350550एक्स),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सुमेर सिंह (जेसी-350528एम), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) फोडे बाबासो रामा (जेसी-350568एन),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) भोसले राजेन्द्र मारुती (जेसी-350572डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) पाल सिंह (जेसी-350527के), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) सतविन्दर सिंह (जेसी-350617एल),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मुनीर अहमद खान (जेसी-350599एन),
04 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सुरजीत सिंह (जेसी-350689पी), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) खेम चंद (जेसी-350600एक्स), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद अदालत (जेसी-350803एल),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) अवतार सिंह (जेसी-350609एम),
04 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) कुलवंत सिंह (जेसी-350621एन), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) सतपाल सिंह (जेसी-350608के), 06 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) प्रेम सिंह (जेसी-350610एफ), 04 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) अमरजीत सिंह (जेसी-350611के), 07
अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद सकील (जेसी-350622डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मोरे विजय वासुदेव (जेसी-350612एम),
02 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मलकीत सिंह (जेसी-350613पी),
10 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) प्यार चंद (जेसी-350629ए), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) सतपाल सिंह (जेसी-350626एम),
19 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) हीरालाल हगरूजी खडसे (जेसी-350627पी),
04 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बलदेव सिंह (जेसी-350628एक्स),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) जोधाले आर पी (जेसी-350653डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) रियासत आलम (जेसी-350543एफ),
30 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (जीडी) जगताप प्रकाश दौलतराव
(जेसी-350526एफ), 09 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) आर राजेन्द्रन (जेसी-350544के), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) रामानंद यादव (जेसी-350555डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) ब्रिजेश कुमार (जेसी-350549एच),
03 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-350551ए), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) रियाज अहमद (जेसी-350556वाई),
02 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) दलीप सिंह (जेसी-350567एल), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) हरजिंदर सिंह (जेसी-350564एक्स),
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बलविंदर सिंह (जेसी-350565ए), 01 सितम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद इरफान (जेसी-350566एच),
16 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) असमद अली अन्सारी (जेसी-350573वाई),
15 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) मोहन सिंह (जेसी-350658पी), 11 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) गुरजंत सिंह (जेसी-350666एन), 12 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमीत सिंह (जेसी-350604एन), 01 अक्टूबर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) अब्दुल गनी मंसुरी (जेसी-350598एल),
27 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक कुमार पांडे (जेसी-350618एन),
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) चरनजीत सिंह (जेसी-350654वाई),
02 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) असरफ अली (जेसी-350655एफ),
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) बलबीर सिंह (जेसी-350639के), 01 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) लखविंदर सिंह (जेसी-350656के), 01 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) नरंजन सिंह (जेसी-350657एम), 01 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार (जीडी) रियाझुदीन खान (जेसी-350659एक्स),
01 नवम्बर 2010

- नायब सूबेदार (जीडी) हरीनाथ प्रसाद (जेसी-350642के), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) प्रेम चंद (जेसी-350660एम), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) कुलविंदर सिंह (जेसी-350661पी), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) हरबंस सिंह (जेसी-350662एक्स), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) राज कुमार (जेसी-350663ए), 11 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) प्रमोद कुमार सिंह (जेसी-350664पी), 13 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) महादेव कृष्णा चव्हाण (जेसी-350782डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) राज कुमार (जेसी-350700एच), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) शिशान सिंह (जेसी-350667डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) तिलक राज (जेसी-350601ए), 01 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) मंदार सिंह (जेसी-350668वाई), 23 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) पी बालासुब्रमनीयन (जेसी-350669एफ), 03 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) बिजेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-350670डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) जुलफेकर खान (जेसी-350672एफ), 13 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) रमझान (जेसी-350673के), 24 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) हरपाल सिंह (जेसी-350676एक्स), 02 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) नागेन्द्र गिरी (जेसी-350731एच), 16 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) राम परवेश सिंह (जेसी-350732एल), 03 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) कृष्ण लाल (जेसी-350702एन), 15 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) भरत सिंह (जेसी-350703डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) अनंतराम भुराजी कोरे (जेसी-350677ए), 01 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) तारा सिंह (जेसी-350677एच), 01 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) राजेश राय (जेसी-350704वाई), 15 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) विनोद कुमार (जेसी-350705एफ), 21 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) कुलवंत सिंह (जेसी-350679एल), 10 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) कृष्णा कुमार (जेसी-350734डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) लंके रघुनाथ किशन राव (जेसी-350684डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) सीता राम दादु जाधव (जेसी-350660ए), 21 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) सगत सिंह (जेसी-350710एम), 08 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) अखिलेशवर प्रसाद (जेसी-350681एच), 18 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) सुनील कुमार (जेसी-350682एल), 23 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) बलवीर सिंह (जेसी-350735वाई), 14 दिसम्बर 2010
- नायब सूबेदार (जीडी) परते प्रकाश सहदेव (जेसी-350783वाई), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) उत्तेकर तानाजी दत्तु (जेसी-350712एक्स), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) मुन्ना खान (जेसी-350713ए), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) रफीकुल इस्लाम (जेसी-350714एच), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) खैरे पांडुरंग वी (जेसी-350715एल), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) जय प्रकाश (जेसी-350834एफ), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) देव नाथ सिंह यादव (जेसी-350744ए), 01 जनवरी 2011
- नायब सूबेदार (जीडी) निर्मल सिंह (जेसी-350766वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) विजय बाबाराव काले (जेसी-350719एफ),
01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जय नारायण (जेसी-350767एफ), 01 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) देवेन्द्र कुमार (जेसी-350721वाई), 11 जनवरी
2011

नायब सूबेदार (जीडी) बिसराज खान (जेसी-349667के), 01 जनवरी
2011

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

नायब सूबेदार एसकेटी यमुना प्रसाद (जेसी-349721एम), 03 अगस्त
2010

नायब सूबेदार एसकेटी नरेन्द्रपाल सिंह (जेसी-349722पी), 01 नवम्बर
2010

नायब सूबेदार एसकेटी मालकर प्रकाश साहेबराव (जेसी-349723एक्स),
01 नवम्बर 2010

सूबेदार संगीतकार के रैंक में

नायब सूबेदार संगीतकार तुक बहादुर थापा (जेसी-347948एफ),
18 अक्टूबर 2010

अलका जोशी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 249, दिनांक 02 मई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत
करते हैं :-

श्री एन एम जोगलेकर को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 10 जनवरी 2011
(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति के के उर्मिला को हिन्दी अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप
में डी आर डी ओ में 20 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री जे बी नागेश्वर राव को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)
के रूप में डी आर डी ओ में 12 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति ए अनीता को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 17 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री एम सी कुरीहाल को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)
के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री के गोपाल को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप
में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति सी जय श्री को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)
के रूप में डी आर डी ओ में 06 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री के आर जगदीशप्पा को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 29 दिसम्बर 2010
(पूर्वाह) से पे बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति डी विजयामाला को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित)
के रूप में डी आर डी ओ में 31 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति ऊषा गर्ग को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री पी रामाचंद्रन को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमति ए सम्पूर्णा को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री जी यादागिरि को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री आर एस एन मूर्ति को निजी सचिव 'ए', ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के
रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री चरण राव को प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप
में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2011 (पूर्वाह) से पे बैंड
रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

वी पी सिंह
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

सेना शाखा

सं. 250, दिनांक 02 मई 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी
की दिनांक 30.12.2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा
कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश
74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान
करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईट लेफ्टि के पद पर

दीपक कुमार बोरो (एमएस-15173पी/एफ-28409एस)
(एमआर-09064एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 जून 2002 से हो जाएगी
इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए दी गई 36 महीने
एवं अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल

है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मार्च 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

श्रीधरा रेड्डी (एमएस-15479एक्स/एफ-28876एन) (एमआर-09079पी), एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मानवातकर श्रीकांत कुशनाराव (एमएस-15472एन/एफ-28884एल) (एमआर-09068एच), एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

भाश्कर दास (एमएस-15554डब्ल्यू/एफ-28903एल) (एमआर-09071एच), एएमसी, 17 अप्रैल 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 17 अक्टूबर 2006 से हो जाएगी

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अश्विनी कुमार (एमएस-15483ए/एफ-28878ए) (एमआर-09072एल), एएमसी, 22 जनवरी 2007

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 जनवरी 2005 से हो जाएगी

इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डी एल ओ (ओटो. रीहनो. लारयीनगोलोजी) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17-मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

भेन्डिगीरी शिरीष रमेश (एमएस-15485एल/एफ-28869टी) (एमआर-09075वाई), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2004 से हो जाएगी

इसमें स्नातकोत्तर योग्यता गाईनाकोलोजी एवं ओब्स्टेटिक्स के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सचिन राठौर (एमएस-15390एल/एफ-28868आर) (एमआर-09093एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2003 से हो जाएगी

इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी (ओपतालमोलोजी) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 फरवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

चेतन सी पाटिल (एमएस-15486एन/एफ-28870एल) (एमआर-09076एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

फलाईंग अफसर के पद पर (परख पर)

अजय कुमार (एमएस-14863एम/एफ-27663एन) (एमआर-09084ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 अप्रैल 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

शैलेन्द्र सिंह (एमएस-15090के/एफ-28385टी) (एमआर-09077के), एएमसी, 29 अक्टूबर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th June 2011

ARMY BRANCH

No. 239, dated 27th April 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be FG Offr (On Prob)

Chetan Yadav (MR-09099H), AMC, 09 Sep 2010

YASH PANDE

Brig

Dy. DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 240, dated 27th April 2011—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 18th Mar 2011, on relinquishing their Short Service Commission wef 18 Mar 2011 :—

IC No allotted, SS No., Name and Arms/Service

(IC-72802A) (SS-41806P) Praveen Kumar, Arty

(IC-72803H) (SS-41809H) Jumade Abhishekh Digambarrao, Mech

(IC-72805N) (SS-41811A) Anil Kumar Salgotra, Inf

(IC-72806W) (SS-41812H) Jigyasu Puri, Arty

(IC-72807Y) (SS-41813L) Anil Kumar, ASC

(IC-72808F) (SS-41814N) Abhik Dutta, Inf

(IC-72809K) (SS-41815W) Sachin Sambhaji Deshmukh, Inf

(IC-72812K) (SS-41818K) Singh Negi Mahendra Diwan, Arty

(IC-72813M) (SS-41819M) Vivek Kumar Jaswal, Inf

(IC-72816A) (SS-41822M) Dushyant Singh Shekhawat, Inf

(IC-72818L) (SS-41825A) Rahul Tanwar, ASC

(IC-72819N) (SS-41826H) Satish Kumar Singh, Arty

(IC-72821L) (SS-41828N) Suman Kumar Sinha, AAD

(IC-72822N) (SS-41829W) Bhaskar Limbu, Inf

(IC-72823W) (SS-41830L) Shivshankar Deep S, Inf

(IC-72824Y) (SS-41831N) Mousam Kumar, Arty

(IC-72825F) (SS-41833Y) Pritikant Mohapatra, AAD

(IC-72827M) (SS-41835K) Rakesh Kumar Dandapat, AAD

(IC-72828P) (SS-41838X) Sharad Henery Joseph, Arty

(IC-72829X) (SS-41839A) Tej Pratap Singh, Inf

(IC-72830M) (SS-41840P) Neeraj Gupta, Arty

(IC-72831P) (SS-41841X) Anurag Singh, Arty

(IC-72832X) (SS-41842A) Susheel Kumar Choudhary, Arty

(IC-72835L) (SS-41845N) Jadhav Mandar Chnandrakant, Inf

(IC-72838Y) (SS-41849K) Vikas Chauhan, Inf

(IC-72840W) (SS-41851F) Rohit Guleria, Inf

(IC-72842F) (SS-41853M) Girish Kumar Sharma, Inf

(IC-72843K) (SS-41854P) Vikas Sharma, Inf

(IC-72844M) (SS-41855X) Jai Deep, Arty

(IC-72845P) (SS-41857H) Guriqbal Singh, Arty

(IC-72846X) (SS-41858L) Omkar Joshi, AC

(IC-72847A) (SS-41859N) M P Aiyappa, AC

(IC-72848H) (SS-41860H) Harsha Kumar, Inf

(IC-72849L) (SS-41861L) Randeep Singh Bika, Inf

(IC-72850A) (SS-41863W) Vinay Kumar Pandey, Inf

(IC-72851H) (SS-41864Y) Rakesh Kumar Singh, Arty

(IC-72852L) (SS-41866K) Prateek Malik, AC

(IC-72854W) (SS-41869X) Abhishek Rathee, Inf

(IC-72855Y) (SS-41870M) Haorokcham Khagemba, Inf

(IC-72856F) (SS-41871P) Amit Kumar Pandey, Inf

(IC-72857K) (SS-41874H) Neeraj Tuli, Arty

(IC-72858M) (SS-41875L) Amit Kumar Yadav, Arty

(IC-72859P) (SS-41876N) Manoj Kumar Khati, Inf

(IC-72860K) (SS-41877W) Bharat Bhushan, AAD

(IC-72861M) (SS-41878Y) Mukund V, Inf

(IC-72863X) (SS-41882F) Ramandeep Makkar, Arty

(IC-72865H) (SS-41884M) Abhinav Kumar, Mech Inf

(IC-72866L) (SS-41885P) Mukesh Kumar K, Arty

(IC-72869Y) (SS-41888H) Vickey Chettri, Arty

(IC-72872Y) (SS-41893N) Harikesh Pratap Singh, AOC

(IC-72873F) (SS-41894W) Gaikwad Shamrao Anand, Inf

(IC-72874K) (SS-41895Y) T Krishna Kumar, Inf

(IC-72875M) (SS-41896F) Akshay Vijay Pawar, AC
 (IC-72876P) (SS-41897K) Vikas Kundu, AAD
 (IC-72877X) (SS-41898M) Vanlalsanga, Inf
 (IC-72879H) (SS-41901F) Atul Deoli, Arty
 (IC-72880X) (SS-41902K) Pradeep Kumar Sheokand, Inf
 (IC-72881A) (SS-41903M) Varun Vashista, ASC
 (IC-72882H) (SS-41905X) Chengappa C G, Inf
 (IC-72883L) (SS-41906A) Deepesh Prakash, Inf
 (IC-72884N) (SS-41907H) Gaurav Singh, Arty
 (IC-72885W) (SS-41908L) Vikash Raizada, AOC
 (IC-72886Y) (SS-41910H) Brahmdev Singh, AOC
 (IC-72888K) (SS-41917M) Kapil Pathak, ASC
 (IC-72889M) (SS-41918P) Swagat Sharma, AC
 (IC-72890F) (SS-41919X) Gajendra S Shekhawat, Inf
 (IC-72891K) (SS-41920M) Zorawar Singh Jamwal, Inf
 (IC-72892M) (SS-41921P) Pankaj Singh, Inf
 (IC-72893P) (SS-41922X) Ravi Panwar, Inf
 (IC-72894X) (SS-41923A) Gaurav Mishra, Inf
 (IC-72895A) (SS-41925L) Sharat Anigol, Mech
 (IC-72896H) (SS-41926N) Abhishek Sandhu, Arty
 (IC-72897L) (SS-41928Y) Polumuri Raj Kumar, Int
 (IC-72898N) (SS-41929F) Sidharth Singh Sambyal, Inf
 (IC-72899W) (SS-41931Y) Jagpal Singh, Int
 (IC-72900A) (SS-41932F) Prajwal Dixit, Inf
 (IC-72902L) (SS-41934M) Gurpreet Singh Arora, Arty
 (IC-72906F) (SS-41939L) Ankit Malhotra, Inf
 (IC-72907K) (SS-41941H) Ashwin Pundir, AC
 (IC-72908M) (SS-41942L) Amrish-Dubey, AOC
 (IC-72910K) (SS-41944W) Abraham Anand Arunkumar,
 Arty
 (IC-72912P) (SS-41947K) Sartaj Singh Pannu, AOC
 (IC-72913X) (SS-41950K) Ajay Yadav, AOC
 (IC-72914A) (SS-41951M) Gopal Arora, Int
 (IC-72917N) (SS-41955H) Ashish Saxena, Inf
 (IC-72919Y) (SS-41957N) Khaisommang Vaiphei, Inf
 (IC-72920N) (SS-41958W) Ram Chander, AOC
 (IC-72923F) (SS-41961W) Shwetabh Singh, Inf
 (IC-72925M) (SS-41963F) Prashant Dhawan, Int
 (IC-72927X) (SS-41966P) Mir Nadim, Arty

(IC-72929H) (SS-41969H) Krishan Dayal Singh Rathore,
 Arty
 (IC-72936Y) (SS-41980F) APC Rajesh, Arty
 (IC-72937F) (SS-41981K) Christo Sudeep D Souza, Arty
 (IC-72940F) (SS-41984X) Amitabh Ghosal, AC
 (IC-72941K) (SS-41985A) Vijay Kumar, ASC
 (IC-72942M) (SS-41986H) Dhruvabrata Kakoti, Inf
 (IC-72945A) (SS-41990L) Kumar Anurag Singh, Inf
 (IC-72947L) (SS-41992W) Gaurav Tewari, Inf
 (IC-72948N) (SS-41993Y) Anirudh Anand, Mech
 (IC-72950L) (SS-41997P) Sain A Navin, Arty
 (IC-72953Y) (SS-42002M) Jitender Singh, JAG

(b) The date of seniority in respect of abovementioned officers will be as follows:—

- (i) The date of increments of pay - 18 Mar 2006
- (ii) The date for promotion - 18 Oct 2006

(c) The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(a) The undermentioned Short Service Commissioned Officers are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 18 Mar 2011, on relinquishing their Short Service Commission wef 18 Mar 2011.

IC No allotted, SS No., Name and Arms/Service
 (IC-72786N) (SS-41779W) Senthil Anand, Sigs
 (IC-72787W) (SS-41780L) Ravi Sunhare, Engrs
 (IC-72788Y) (SS-41781N) Uday Singh Rathore, Sigs
 (IC-72789F) (SS-41783Y) Sandeep Singh, Engrs
 (IC-72790W) (SS-41786M) Abhinav, EME
 (IC-72791Y) (SS-41788X) Deenbandhu, Engrs
 (IC-72792F) (SS-41789A) Nandhi Kola Verma Anantha,
 Sigs
 (IC-72795P) (SS-41792A) M Danish Siddique, Engrs
 (IC-72796X) (SS-41794L) Gaurav Sawhney, EME
 (IC-72797A) (SS-41796W) Vinay Kumar Singh, EME
 (IC-72798H) (SS-41797Y) Jagdev Singh Yadhav, EME

(IC-72801X) (SS-41801W) Giri Ratna Singh, Sigs

(IC-72800P) (SS-41799K) Satish Kumar, Sigs

(b) The date of seniority in respect of abovementioned officers will be as follows:—

(i) The date of increments of pay - 21 Mar 2004

(ii) The date for promotion - 21 Apr 2004

(c) The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

V S RANADE
Col
Col, MS-7

ARMY BRANCH

No. 241, dated 27th April 2011—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified:—

REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Sub Maj (GD)

Sub Maj Nirmal Singh (JC-498138W), Formerly Sikh, 19 Dec 2009

Sub Maj Jay Krushna Nanda (JC-748755F), Formerly EME, 19 Dec 2009

Sub Maj Soman Nair S (JC-224780Y), Formerly MEG, 27 Dec 2009

In the rank of Subedar (GD)

Sub Tarsem Lal (JC-641871M), Formerly ASC (S), 13 Jul 2009

Sub Chenthamara V (JC-438590F), Formerly Madras, 05 Sep 2009

Sub Ashok Kumar (JC-258925L), Formerly Artillery, 06 Dec 2009

Sub Uday Narain Singh (JC-369855M), Formerly Signals, 19 Dec 2009

Sub Rajinder Katoch (JC-371139A), Formerly Signals, 19 Dec 2009

Sub Azad Singh (JC-372303K), Formerly Signals, 19 Dec 2009

Sub Jarnail Singh (JC-754098Y), Formerly EME, 19 Dec 2009

Sub Gurbax Singh (JC-239847K), Formerly Armd, 19 Dec 2009

Sub Subhash Chand (JC-519595A), Formerly Dogra, 19 Dec 2009

Sub Ajit Singh (JC-265185K), Formerly Artillery, 19 Dec 2009

Sub Darwan Singh (JC-539247A), Formerly Kumaon, 19 Dec 2009

Sub Mohan Singh (JC-267345X), Formerly Artillery, 19 Dec 2009

Sub Unnikrishnan M (JC-306743X), Formerly MEG, 20 Dec 2009

Sub Nripendra Sinha (JC-548630A), Formerly Assam, 30 Dec 2009

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Tejinder Singh (JC-419427M), Formerly Mech Inf, 25 Apr 2009

Nb Sub Bihari Ram (JC-842530X), Formerly Navy, 25 Apr 2009

Nb Sub Madan Singh Rajput (JC-469598P), Formerly Raj Rif, 27 Apr 2009

Nb Sub Mandhir Singh (JC-412742A), Formerly Para, 15 Jul 2009

Nb Sub Gurjant Singh (JC-348330P), Formerly Beg (K), 05 Sep 2009

Nb Sub Mohd Akram (JC-592366X), Formerly Jak LI, 10 Oct 2009

Nb Sub Soman Pillai G (JC-347171W), Formerly Beg (K), 19 Dec 2009

Nb Sub Didar Singh (JC-508446M), Formerly Sikh LI, 19 Dec 2009

Nb Sub Gyanendara Singh (JC-478877F), Formerly Rajput, 19 Dec 2009

Nb Sub Awtar Singh (JC-498936K), Formerly Sikh, 19 Dec 2009

Nb Sub Vijay Narayan Pandey (JC-726311X), Formerly AOC, 19 Dec 2009

Nb Sub Veer Singh (JC-241606H), Formerly Armd, 19 Dec 2009

Nb Sub Manohar Prasad Singh (JC-371395P), Formerly Signals, 20 Dec 2009

PRADEEP KUMAR
Under Secy

No. 242, dated 28th April 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name and Arm

(IC-57343) Shamsher Singh, AOC

(IC-57344) Ravinder Talashi, AC	(IC-57389) Satyender Singh, Inf
(IC-57345) Dev Mohan Govil, AC	(IC-57390) Robins Mathews, Engrs
(IC-57346) K Ravi Chandran, Engrs	(IC-57392) Sameer Sareen, Sigs
(IC-57347) Hironmoy Bhattacharya, Engrs	(IC-57393) Rakesh Pachora, AC
(IC-57348) Amandeep Singh Gill, Sigs	(IC-57394) Gurnarinder Singh, ASC
(IC-57349) V Karthik, AC	(IC-57395) Ashutosh Joshi, EME
(IC-57350) Hemant Hoshrangdel Rana, ASC	(IC-57398) Anupam Ashish, Arty
(IC-57351) Kuldeep Yadav, EME	(IC-57399) Amit Sethi, Sigs
(IC-57353) Akhilesh Kumar Balyan, EME	(IC-57400) Ankur Banga, Mech Inf
(IC-57354) Amitosh Kumar, Arty	(IC-57401) Amitabh Rathi, EME
(IC-57355) Ashok Kumar Thakur, Inf	(IC-57402) Koshy Abu Abraham Varikad, Inf
(IC-57356) Prateek Prashar, Inf	(IC-57403) Chinmay Shesasayee Satpathy, ASC
(IC-57358) Vikram Vasantrag Lawand, Inf	(IC-57404) Anurag Jain, Sigs
(IC-57359) Shiv Nagendra Singh Chauhan, Arty	(IC-57405) Manjunath Pai G, AD Arty
(IC-57360) Sanjay Kannothe, Inf	(IC-57406) Anil Sirswal, EME
(IC-57361) Saurabh Kapoor, AD Arty	(IC-57407) Rajinder Pal Singh, Engrs
(IC-57362) Binesh Kumar Panda, Arty	(IC-57408) Chiv Mehta, Arty
(IC-57363) P Rajan, ASC	(IC-57410) Md Abdul Wahab, AOC
(IC-57364) Guricbal Singh Gill, Mech Inf	(IC-57411) Amit Sakhre, Engrs
(IC-57366) Devendra Singh Negi, Sigs	(IC-57412) Vidwansa Pradyumna Shrikrishna, Arty
(IC-57367) Brijesh Pathania, Arty	(IC-57413) Yash Raj Gulia, ASC
(IC-57368) Manjit Singh Bhau, EME	(IC-57414) Baljeet Singh Negi, Sigs
(IC-57369) Kulkarni Rahul Vinayak, Sigs	(IC-57415) Vivek Verma, Arty
(IC-57370) Brijeshwar Singh Bhandari, Mech inf	(IC-57416) Pankaj Bhagwati, Inf
(IC-57371) Devwrat Shaktawat, Inf	(IC-57417) Jondhale Vishal Vasant, Inf
(IC-57372) Vikram Chatrath, AD Arty	(IC-57418) Akshya Chandran, Inf
(IC-57373) Vijay Kumar Goyat, Engrs	(IC-57420) Kanwar Vikram Singh, Inf
(IC-57374) Vijay Joshi, EME	(IC-57421) Ajay Londhe, Engrs
(IC-57375) Ali Akhtar Jafri, Arty	(IC-57422) Sanjay Barshilia, Arty
(IC-57377) Ranga Sai Rajan, Inf	(IC-57423) Sunitra M Joshi, EME
(IC-57378) Dominic David Lazarus, Engrs	(IC-57424) Harpal Singh Yadav, ASC
(IC-57379) Akash Khazanchi, Inf	(IC-57426) Bhagirath Dey, Int
(IC-57380) Suneel Kataria, Inf	(IC-57428) Anshu Khare, Sigs
(IC-57381) Jitinder Singh, ASC	(IC-57429) Rohit Pant, Inf
(IC-57382) Karamveer Singh, AOC	(IC-57430) Upendra Nath Rai, Arty
(IC-57384) Lohit Keerthi, EME	(IC-57431) Hemant Kumar, AOC
(IC-57386) Bhide Kedar Chandrashekhar, Arty	(IC-57432) A Veek Mookharjea, Inf
(IC-57387) Rishi Yadava, AOC	(IC-57434) Samar Pratao Singh Chouhan, Mech Inf
(IC-57388) Brajesh Kumar Singh, AVN	(IC-57435) Manish Singh Adhikari, EME

(IC-57436) Chaitanya Capoor, EME	(IC-57482) Baljit Singh Chahal, Inf
(IC-57437) Gaurav Talwar, Engrs	(IC-57483) Kapil Oberoi, EME
(IC-57438) Praveen G, Inf	(IC-57484) Puneet Raina, AD Arty
(IC-57439) Pramod Kumar Mishra, Arty	(IC-57487) Param Preet Singh Kochar, Engrs
(IC-57440) Bir Bikram, Inf	(IC-57488) Amit Lamba, Engrs
(IC-57441) Pramod Ramesh Bhai Ambasana, AOC	(IC-57489) Navin Kumar Bahl, EME
(IC-57442) Randolph Ivo Vaz, Arty	(IC-57490) Amit Verma, Inf
(IC-57444) Preet Mohan Singh Kohli, AD Arty	(IC-57491) Mayank Choudhary, Sigs
(IC-57445) Arjun K, Arty	(IC-57492) G Arun Kumar, Mech Inf
(IC-57446) Rajith CY, Inf	(IC-57493) Gurvinder Pal Singh Johal, Arty
(IC-57448) Vinod Kumar, ASC	(IC-57494) Bhaskar Pant, AOC
(IC-57449) Ashish Vasudeva, Engrs	(IC-57495) Akshay Mankotia, Arty
(IC-57450) Sunil G Nayak, Sigs	(IC-57496) Mohit Thapa, Inf
(IC-57451) Manu Madaan, Sigs	(IC-57498) Sanjay Sharma, Engrs
(IC-57452) Mate Suhas Balaram, Inf	(IC-57499) Avinash Sharma, EME
(IC-57453) Prasun Kumar Panda, ASC	(IC-57500) Bhaskar Menon, Sigs
(IC-57454) Jagpreet Singh Bakshi, Engrs	(IC-57501) Amit Pande, Engrs
(IC-57455) Praveen Kumar, Inf	(IC-57503) Partha Sarathi Nanda, EME
(IC-57457) Nitesh Kumar Malik, Mech Inf	(IC-57504) Schin Sharma, EME
(IC-57458) Anoopam Bharadwaj, EME	(IC-57505) Ravi Roshan Singh, AOC
(IC-57459) Maneesh Kumar Dubey, AVN	(IC-57506) Dilcharanjit Singh, ASC
(IC-57460) Sameer Kalra, Engrs	(IC-57507) S Sriram, Inf
(IC-57461) Nirmal Pandey, Sigs	(IC-57508) Gurjinder Singh Gill, EME
(IC-57462) Shishir Bhardwaj, Inf	(IC-57510) Shivinder Singh, Engrs
(IC-57463) MC Muthanna, Inf	(IC-57511) Shivender Chauhan, EME
(IC-57465) Ruchir Bajpal, Inf	(IC-57514) Abhilash Sahoo, Arty
(IC-57466) Balak Singh Verma, AD Arty	(IC-57516) Atul Kumar Singh, Inf
(IC-57468) Amarjit Singh, Arty	(IC-57518) Manish Kumar Asthana, AD Arty
(IC-57469) Amit Sharma, EME	(IC-57519) Bholu Shankar Singh, Arty
(IC-57470) Niraj Shrikant Karan, Inf	(IC-57521) Upender Paul Kanwar, AC
(IC-57471) Gaurav Bose, Inf	(IC-57522) Ajinkya Anil Jadhav, Inf
(IC-57472) Yugbir Singh, AC	(IC-57523) V Vidyasankar, Inf
(IC-57473) Jit Bahadup Chhetri, Inf	(IC-57524) K Jayashankar, Inf
(IC-57474) Hmrat Verma, Arty	(IC-57525) Pushpinder Chhikara, Engrs
(IC-57476) Nishant Navin, EME	(IC-57526) Ravi Anand, EME
(IC-57477) Anand Manwal, Inf	(IC-57527) Anoop Birmhan, Int
(IC-57478) Ajit Singh, AOC	(IC-57529) Sandeep Jaspal, Inf
(IC-57480) Param Puneet Singh Rawat, ASC	(IC-57530) Prasanna Venkatesh S, AD Arty
(IC-57481) Nitin Khanna, Sigs	(IC-57531) Aditya Pratap Singh, ASC

(IC-57533) Sushil Kumar Tanwar, Inf	(IC-57591) Ranjit Singh Dhillon, Arty
(IC-57534) Navin Yadav, ASC	(IC-57592) Rajiv Kumar Nanda, Mech Inf
(IC-57536) Pazhanivelu R, Inf	(IC-57593) Harpreet Singh, Arty
(IC-57537) Deependra Gurung, Mech Inf	(IC-57594) Deepak Juyal, Sigs
(IC-57540) Yudhvir Singh Dhaka, Engrs	(IC-57595) Amit Sharma, ASC
(IC-57541) Hajarnis Jaydip Chandrakant, Inf	(IC-57597) Pandey Pramod Kumar AN, Arty
(IC-57544) Manish Dewangan, EME	(IC-57598) TS Anand, EME
(IC-57546) Ravi Prakash Singh, AD Arty	(IC-57599) Krishna Kumar G, AC
(IC-57547) Satinderjit Singh Sandhar, Sigs	(IC-57600) Gulshan Mongia, AD Arty
(IC-57548) Shashank Kushwaha, Arty	(IC-57602) Vikramjit Singh Kahlon, AC
(IC-57551) Sandeep Pal Singh Chatha, EME	(IC-57604) Saikat Kumar Bose, Inf
(IC-57552) Subodh Chaudhary, Arty	(IC-57605) Vivek Guleria, ASC
(IC-57553) Rajeev Kumar, AOC	(IC-57606) R Sethumadhavan, Arty
(IC-57554) Rajender Singh Chouhan, ASC	(IC-57607) Rajesh Blowria, Mech Inf
(IC-57555) Avishek Sinha, Arty	(IC-57608) Praveen Kumar Sharma, AOC
(IC-57557) B Gorinath Reddy, EME	(IC-57609) Jasbir Singh Bath, Engrs
(IC-57558) Virender Singh, Arty	(IC-57610) Udai Pratap Singh, EME
(IC-57563) Ajay Mathur, AD Arty	(IC-57611) Avneet Singh Kapoor, Inf
(IC-57564) Manjeet Singh Kooner, Inf	(IC-57612) Ganesh Raman, Arty
(IC-57565) Karunakaran Adencherry, Engrs	(IC-57613) Raj Kumar Chachra, Inf
(IC-57566) Harinder Singh Manik, Inf	(IC-57615) Abhinandan Singh, Inf
(IC-57567) Naveen Siddhu, EME	(IC-57616) Sapan Kumar Jaiswal, EME
(IC-57568) Somil Singh, AOC	(IC-57617) Suneel Ranaut, Engrs
(IC-57569) Rajeev Singh, Arty	(IC-57618) Subin Krishnan, Engrs
(IC-57571) Vinod Kumar VK, Inf	(IC-57619) Jayat Upadhyay, Engrs
(IC-57572) Ramchandra Kshetri, Arty	(IC-57621) Amitabh Srivastava, Arty
(IC-57575) Manpreet Singh Bhinder, AD Arty	(IC-57622) Viresh Sharma, Arty
(IC-57577) Harsh V Srivastava, EME	(IC-57624) Jeevender Singh, Inf
(IC-57578) Vikram Iyengar, Inf	(IC-57625) Romi Singh Legha, Engrs
(IC-57579) Sanjeev Miglani, ASC	(IC-57626) Dinesh Sharma, Arty
(IC-57580) Rajeev Rautela, Engrs	(IC-57627) Lalit Mohan Gandhir, Sigs
(IC-57581) Adit Bikram Singh, EME	(IC-57628) Amit Bhardwaj, EME
(IC-57582) Maheshwar Sharma, Engrs	(IC-57629) Dheeraj Kumar Basel, Mech Inf
(IC-57584) Sanjeev Kumar Sharma, Engrs	(IC-57630) Abhash K Simba, Inf
(IC-57585) Prithvi Raj Chauhan, Inf	(IC-57631) Dushyant Kulshrestha, ASC
(IC-57586) Naveen Kumar Singh, Inf	(IC-57632) Rohit Benjamin Sathiaraj Titus, AOC
(IC-57587) Naveen Kumar Chaudhary, Sigs	(IC-57633) Anuj Thapa, EME
(IC-57588) Vinayak Ramaswamy, Engrs	(IC-57634) Mahendra Singh, Inf
(IC-57590) Chiranjeev Das, Engrs	(IC-57635) Maddu Chandra Sekhara Rao, Arty

(IC-57636) Pankaj Geetey, Sigs	(IC-57686) Schil Mehta, Arty
(IC-57638) Anand Singh Sajwan, Inf	(IC-57688) Ajay Deep Singh Dali, Arty
(IC-57639) Manoj Kumar Singh, ASC	(IC-57689) Arun Kumar, Engrs
(IC-57641) Rajendra Chand Thakur, Sigs	(IC-57690) Vikas, AC
(IC-57642) Awasthi Amit Rameshchandra, AD Arty	(IC-57691) Rajesh Mishra, Arty
(IC-57643) Shardool Sharma, AC	(IC-57692) Charanjit Singh Sidhu, Inf
(IC-57646) Sanjeev Kumar Bhati, Inf	(IC-57693) Harsh Kulshrestha, Int
(IC-57647) K K Venkatraman, Inf	(IC-57694) Sankalp Jain, Mech Inf
(IC-57649) Vivek Kumar Sunkari, Inf	(IC-57695) Rajesh Babu Mantena, AC
(IC-57650) Raja Bhatnagar, EME	(IC-57696) Manoj Kumar, EME
(IC-57651) Jagdish Chandra, Engrs	(IC-57697) Sukhdarshan Singh Brar, Inf
(IC-57652) Ajay Pratab Hamir, Inf	(IC-57699) Kulkarni Shashank Chandrakant, Inf
(IC-57653) Vipul Tyagi, Inf	(IC-57700) Sandeep, Sigs
(IC-57655) Rishi Teotia, EME	(IC-57701) Vishvanath A Gokhale, Arty
(IC-57656) Karan Kadyan, Sigs	(IC-57717) Rudrax Arti, AEC
(IC-57657) Pranab Dev, Engrs	
(IC-57658) Praveen Kumar S, Inf	(IC-59534) Sudesh Kumar Dhillon, Sigs
(IC-57660) Rajesh Kumar Das, Arty	(IC-59535) Gireesh Nagpal, EME
(IC-57662) Laxman Singh Rathore, AC	(IC-59536) Updesh Kumar Sharma, EME
(IC-57663) Bipul Kumar, AD Arty	(IC-59537) Amarpreet Nayyar, Engrs
(IC-57664) Manish Kashyap, AD Arty	(IC-59538) Kanwaljit Singh, EME
(IC-57665) Rajesh Sharma, Inf	(IC-59540) Sanjiv Sardana, Sigs
(IC-57666) Ajay Kumar Sharma, Arty	(IC-59541) Harmeet Sigh, EME
(IC-57668) Shishir Kumar, AOC	(IC-59542) Sushil Chandwani, Sigs
(IC-57669) Samarjit Singh Boparae, Arty	(IC-59543) Ashok Kumar, Engrs
(IC-57670) Aravind Kumar Singh, EME	(IC-59544) Rohit Sharma, EME
(IC-57671) Pawan Deep Singh Bal, Inf	(IC-59545) Sansar Singh, Sigs
(IC-57672) Shashi Bhushan Kumar, Sigs	(IC-59546) Kamal Pasha Khan, Sigs
(IC-57673) Vishal Kaushik, Engrs	(IC-59547) Pawan Kumar, EME
(IC-57674) Homango Bhushan Baruah, Engrs	(IC-59548) Sunil Kapoor, EME
(IC-57675) Souvick Roy, Sigs	(IC-59549) Vivek Bajpai, Sigs
(IC-57677) Sandeep Mukherjee, AOC	(IC-59550) Gaurav Jain, Engrs
(IC-57678) Gautam Rajrishi, Inf	(IC-59551) Samant Dhondiraj Shamrao, Engrs
(IC-57679) Chinmaya Dubey, EME	(IC-59552) Vishal Sharma, EME
(IC-57680) Jitendra Tiwari, EME	(IC-59554) Anil Raj TA, Engrs
(IC-57681) Manish Kumar Dogra, ASC	(IC-59555) Amitabh Nishit Gottlieb, EME
(IC-57682) Promit Gangadharan, Inf	(IC-59556) Yogesh N Garhwal, Engrs
(IC-57683) Manoj Singh, AOC	(IC-59557) Iyer Vaidyanathan S, Engrs
(IC-57684) Kul Bhushan Upreti, Inf	(IC-59558) Gaurav Bidani, Sigs

—06 Dec 2010

(IC-59559) Rahul Jayant, Sigs
 (IC-59560) Deepak Raj Masanagatta, Engrs
 (IC-59561) Ramneek Dadhwal, Sigs
 (IC-59562) Mohendra Katiyar, EME
 (IC-59564) Manoj Sharma, Engrs
 (IC-59566) Vinay Rao, Engrs
 (IC-59567) Jatinder Paul Singh, EME
 (IC-59568) Govindareddy T Alavandi, Sigs
 (IC-59569) Neetin Sehgal, Engrs
 (IC-59570) Harkamal Singh, Sigs
 (IC-59571) Vikaram Singh Bhadoria, Engrs
 (IC-59572) Neeraj Kumar Bisht, Sigs
 (IC-59573) Dani Yogesh Sharad, Engrs
 (IC-59574) Rupvinder Singh, Engrs
 (IC-59575) Kulbir Singh, Engrs
 (IC-59576) Sanjeev Kumar Gupta, Engrs
 (IC-59577) Vijay Ganjoo, EME
 (IC-59578) Deepak Sharma, Engrs
 (IC-59579) Akkula Balakrishna, Engrs
 (IC-59580) Dinesh Kumar Bhadra, Engrs
 (IC-59581) Manu Bharat Chaudhary, Sigs
 (IC-59582) Ajay Loomba, Sigs
 (IC-59583) Dhiraj Joshi, Engrs
 (IC-59584) Saru Kapur, Engrs
 (IC-59585) Rahul Garg, Engrs
 (IC-59586) Yadbendra Singh, EME
 (IC-59587) L Subramanya, EME
 (IC-59588) Renju Abraham, Sigs
 (IC-59589) Pankaj Pareek, Sigs
 (IC-59591) Bagwan Tanveer Ismail, Engrs
 (IC-59592) Ajay Kumar Gupta, EME
 (IC-59593) Deepak Kumar Gupta, Sigs
 (IC-59594) Varun Malhotra, EME
 (IC-59595) Ranjit Ravindran, Engrs
 (IC-59597) B Kanan, EME
 (IC-59598) Samrat Mohanta, EME

—11 Dec 2011

(IC-55693) Harnek Singh, AOC, 25 Oct 2010
 (IC-55733) Shantanu Chakrabarty, Int, 25 Oct 2010

(IC-56314) Rajbir Singh, Sigs, 07 Nov 2010
 (IC-56317) Naresh Kumar, Engrs, 07 Nov 2010
 (IC-56753) Pankaj Duggal, AOC, 25 Oct 2010
 (IC-57149) Golla Kiran, Sigs, 25 Oct 2010
 (IC-57230) Ashok Kumar K, AC, 25 Oct 2010
 (IC-57433) B Keshav Kumar Vamsi, Inf, 06 Dec 2010
 (IC-05065) Hridya Nand Sharma, RC-1057, QM, 13 Dec 2010
 (IC-05096) Chidananda Prabhu B, RC-1106, CIPHER, 13 Dec 2010

RAHUL SHARMA
 Lt Col
 AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 243, dated 28th April 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj S J Baruah, TA(M)-1186, (AMC TA), 30 Jun 2010
 Maj SK Bhuyan, TA(M)-1187, (AMC TA), 30 Jun 2010
 Maj H K Bhattacharyya, TA(M)-1188, (AMC TA), 30 Jun 2010
 Maj SK Laha, TA(M)-1182, (Rly TA), 06 Dec 2009

JAI RAJ
 Dy Secy

ARMY BRANCH

No. 244, dated 28th April 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

(IC-64393) Suresh D Singh Dadhwal, AC
 (IC-64394) Aman Deep Chauhan, EME
 (IC-64395) Basant Sewada, AC
 (IC-64396) Arun Kumar Singh, Mech
 (IC-64397) Kalpendu Tewari, Arty
 (IC-64398) Deepak Singh Bisht, Engrs
 (IC-64399) Praveen Kumar Tomar, Inf
 (IC-64400) Gagandeep Sapra, Mech

(IC-64401) Gokuladasan P, AOC	(IC-64445) Balasaheb Sudam Khandare, Inf
(IC-64402) J Krishna Kalyan, Arty	(IC-64446) Ambujaksh Tripathi, Inf
(IC-64403) Aseem Kumar Panda, Inf	(IC-64447) Narendra Pratap Singh Raghav, Inf
(IC-64404) Anadi Singh, Inf	(IC-64448) Gopenshwor Sapam, Inf
(IC-64405) B Santosh Babu, Inf	(IC-64449) Saurabh Sharma, Mech
(IC-64406) Satish Kumar Mohapatra, Inf	(IC-64450) Prasoon Garbyal, Inf
(IC-64407) Vivek Kumar, Inf	(IC-64451) Himanshu Bahuguna, Inf
(IC-64408) Shiv Charan Bhardwaj, Inf	(IC-64452) Abhishek, EME
(IC-64409) Sugandh Vikas, Inf	(IC-64453) Hitesh Kumar, Inf
(IC-64410) Rajkumar Mahajan, Inf	(IC-64454) Pranav Kumar, Arty
(IC-64412) Vikash Jhahria, Inf	(IC-64455) Ambuj Roy, Inf
(IC-64413) Ujjwal Kumar, Inf	(IC-64456) Durgesh Prasad Upadhyay, Arty
(IC-64414) Patil Arun Namadeo, ASC	(IC-64457) Ujjawal Dikshit, Inf
(IC-64416) Jithesh R Varier, AD	(IC-64458) Manoj Singh Rawat, Inf
(IC-64417) Gurpal Singh Jambal, Inf	(IC-64459) Prashant Pratap Singh, Inf
(IC-64418) Chetan Pande, Inf	(IC-64460) Ashish Swaroop, AC
(IC-64421) Anuj Sharma, Arty	(IC-64461) Arvind Kumar, AOC
(IC-64422) T Jeya Kumar, Arty	(IC-64462) Shikhar Sharma, Inf
(IC-64423) Dilip Singh Rathore, Inf	(IC-64463) Stalin Kumar Mohanty, Inf
(IC-64424) Sukinder, Inf	(IC-64464) Kuldeep Kumar, Mech
(IC-64425) Deepak Bartwal, AD	(IC-64465) Mallikarjun S Navalgatti, Inf
(IC-64427) Joe Varghese, AOC	(IC-64466) Varun Sharma, Arty
(IC-64428) Parihar Anand Ganesh, Arty	(IC-64467) Kadam Sandesh Suresh, Inf
(IC-64429) Jayant Pattanaik, Inf	(IC-64468) Ajay Kumar, Inf
(IC-64430) Manish Kumar, Inf	(IC-64469) Bhat Madhukar Ganpathi, Inf
(IC-64431) Vishal Sharma, Inf	(IC-64470) Anurag Sen, Inf
(IC-64432) Varun Dalal, AOC	(IC-64471) Gaurav Datar, Inf
(IC-64433) Arpan Dixit, Inf	(IC-64472) Ankur Shukla, Inf
(IC-64434) Anoop Kumar, ASC	(IC-64473) Rajat Parmar, Inf
(IC-64435) Alok Bist, Inf	(IC-64474) Jaswinder Singh, Inf
(IC-64436) Kamal Sajgotra, Inf	(IC-64475) Raj Bahadur Thapa, AD
(IC-64437) Kabul Tyagi, Inf	(IC-64476) Keshab Kumar Chetry, ASC
(IC-64438) Chaitanya Parnaik, AC	(IC-64477) Jasvant Kumar, Inf
(IC-64439) Bedge Kedar Anil, Arty	(IC-64478) Chandresh Choudhary, Arty
(IC-64440) Ajeet Kumar Mehra, ASC	(IC-64479) Abhai Pratap Singh, Arty
(IC-64441) Gaurav Panwar, Inf	(IC-64480) Digvijay Singh, Arty
(IC-64442) Shailender Singh Negi, Inf	(IC-64481) Ibandeep Randhawa, AC
(IC-64443) Sameer Punyani, Inf	(IC-64482) Amiss Srivastava, Inf
(IC-64444) Anurag Singh Yadav, Arty	(IC-64483) Amrit Pal Singh, Arty

- (IC-64484) Ajay Upadhyay, AOC
 (IC-64485) Dipanjan Sengupta, Inf
 (IC-64486) Maibam Ningthem, Inf
 (IC-64487) Dilip Shekhar, Inf
 (IC-64488) Bijender Singh Ahlawat, AC
 (IC-64489) Sharma Mayank Shashi Prakash, Inf
 (IC-64490) Arun Sathyan, Arty
 (IC-64491) Mayank, Inf
 (IC-64492) Tarang Pande, Mech
 (IC-64493) Thiyam Ibungochouba Luwang, Inf
 (IC-64495) Jitendra Singh Niranjana, ASC
 (IC-64496) Joshua John, Inf
 (IC-64497) Shobhit Tiwari, Inf
 (IC-64498) Gautam Nishant, Inf
 (IC-64499) Abhishek Kumar, Inf
 (IC-64500) Gaurav Aithani, AD
 (IC-64501) K Manoj Kumar, Inf
 (IC-64502) Vishal Shah, Int
 (IC-64503) Tushar Piplani, ASC
 (IC-64504) Dwivedi Neelesh Vishwanath, Arty
 (IC-64505) Vivek Ahlawat, AC
 (IC-64506) Shekhar Chaudhary, Inf
 (IC-64507) Mohit Parashar, Inf
 (IC-64508) Syed Ashrat Ali, ASC
 (IC-64509) Nikhil Dubey, Inf
 (IC-64510) Ankush Singh Kashyap, Inf
 (IC-64511) Mandhare Suhas Pandharinath, Inf
 (IC-64512) Vikas Kumar Tripathi, Inf
 (IC-64513) Abhishek Srivastava, Inf
 (IC-64514) Ashutosh Mandal, Arty
 (IC-64515) Sandeep Sharma, Arty
 (IC-64516) Nair Prabhat Ashok Kumar, AOC
 (IC-64517) Partha Pratim Roy Chowdhury, Inf
 (IC-64518) Vivek Chatterjee, Inf
 (IC-64519) Sahil Thakur, Arty
 (IC-64520) Digvijay Singh Solanki, Inf
 (IC-64521) Suresh Babu D, Int
 (IC-64522) Ajit Kumar Singh, Arty
 (IC-64523) Navdeep Kumar Sharma, ASC
 (IC-64524) Ajith S, Inf
 (IC-64525) Amit Kumar Sinsinwar, ASC
 (IC-64526) Arun Tom Sebastian, Inf
 (IC-64527) Nikhil Sharma, Engrs
 (IC-64528) Kush Sahi, Mech
 (IC-64529) Dilip Dudi, Inf
 (IC-64530) Bhanu Chander Narayanam, Inf
 (IC-64531) Sandeep Singh, Inf
 (IC-64532) Rahul Pandey, ASC
 (IC-64533) Piyush Bhardwaj, Inf
 (IC-64534) Pradeep Kumar Chahar, Inf
 (IC-64535) Arun Pratap Singh, Inf
 (IC-64536) Shindepatil Sachinkumar Pradipkumar, Inf
 (IC-64537) Abhimanyu Bajpai, Inf
 (IC-64538) Vivek Jaiswal, Inf
 (IC-64539) Vishal Chopra, AOC
 (IC-64540) Vikram Singh, Inf
 (IC-64541) Rada Uma Maheswara Rao, Arty
 (IC-64542) Arjun Singh, AC
 (IC-64543) Prabhakar Ghildiyal, AOC
 (IC-64544) Amit Chamoli, Inf
 (IC-64545) Dinesh Kumar Jena, Inf
 (IC-64546) Sukumar Saurabh Saran, Inf
 (IC-64547) Rajeev Dhingra, Inf
 (IC-64548) Arpan Alexander, AD
 (IC-64549) Naval Sharma, Inf
 (IC-64550) Atul Singh Jasrotia, AD
 (IC-64551) Prasoon Vatsa, Arty
 (IC-64552) Sukanta Bagchi, ASC
 (IC-64553) Reetesh Kumar Arya, Arty
 (IC-64554) Surjeet Kumar, Sigs
 (IC-64555) Tarun Sharma, Inf
 (IC-64556) Mukesh Taneja, Inf
 (IC-64557) Neeraj Dhull, ASC
 (IC-64558) Vimal Pandey, AOC
 (IC-64559) Deep Kaushik, Inf
 (IC-64560) Pawan Thapa, Arty
 (IC-64561) Prem Wilson, Inf
 (IC-64562) Sunilkumar Shivpujan Sharma, Int

(IC-64563) Anupam Hajela, Inf	(IC-64606) Vivek Sawhney, Inf
(IC-64564) Saurabh Sharma, Inf	(IC-64607) Naveen Kumar Singh, Inf
(IC-64565) Tarun Goel, Inf	(IC-64608) Ritesh Rastogi, Inf
(IC-64566) Subodh Kaushik, Arty	(IC-64609) Jason Jacob, AC
(IC-64567) Mishra Gaurav, Inf	(IC-64610) Vikalp Sharma, Arty
(IC-64568) Manoj PR, Inf	(IC-64611) Vivek Sirohi, AC
(IC-64569) Tarun Tyagi, Inf	(IC-64612) Chingtham Mohandas Singh, Inf
(IC-64570) Abhishek Kumar Sharma, Inf	(IC-64613) Sunil Kumar Tiwari, Arty
(IC-64571) Dinil George, Arty	(IC-64614) Partha Baruah, Inf
(IC-64572) Roshan Lal, ASC	(IC-64616) Dheeraj Dutta, Arty
(IC-64573) Sunil Kumar Nautiyal, Mech	(IC-64617) Amulya Krishna Mishra, Inf
(IC-64575) Kohli Rahul, Inf	(IC-64618) Yeri Varun Shrikant, Mech
(IC-64576) Sodha Anirudhasinh Jamsinh, Inf	(IC-64619) Himanshu Thakran, Inf
(IC-64578) Vibhu Sharma, Arty	(IC-64620) Ravi Jaswal, Inf
(IC-64579) Vikram M Dabrai, Inf	(IC-64621) Prithvi Chandele, Arty
(IC-64580) Naresh K Singh, Inf	(IC-64622) Jagdeep Nautiyal, EME
(IC-64581) Abhishek Atri, AOC	(IC-64623) Gaurav Tripathi, Arty
(IC-64582) Ravi Dutta, Inf	(IC-64624) Narendra Singh, AC
(IC-64583) C Naren Babu, Inf	(IC-64625) Piyush Kumar Sanwal, AD
(IC-64584) Abhay Raj Singh Mann, AC	(IC-64626) Sanjeev Nagar, ASC
(IC-64585) Ajay Singh Kushwah, Inf	(IC-64627) Salesh Somaraj, AOC
(IC-64586) Mithilesh Kumar, Inf	(IC-64628) Ankit Prakash, AC
(IC-64587) Ghorpade Sumeet Sankrajirao, Inf	(IC-64629) Anupam, Inf
(IC-64589) Neeraj Sharma, Arty	(IC-64630) Mohit Chandola, Inf
(IC-64590) Veeraj Vyas, Inf	(IC-64631) Limaye Mayuresh Jagdish, Inf
(IC-64591) Apte Niketan Ashok, Inf	(IC-64632) Swarna Sandeep Mohanty, Inf
(IC-64592) Lalit Bhatt, Inf	(IC-64633) Parag Chhibber, Engrs
(IC-64593) Ashish Kumar, Inf	(IC-64634) Sachin Narwal, ASC
(IC-64594) Nitin Kumar, Inf	(IC-64635) Gautam Gaharwal, Inf
(IC-64596) Nikhil Allen Singh, Inf	(IC-64636) V Suresh, Inf
(IC-64597) Abhishek Pande, AD	(IC-64637) Dev Sahi, Inf
(IC-64598) Harpreet Singh Chhatwal, ASC	(IC-64638) Abhay Chandan Chaudhary, Arty
(IC-64599) Lokesh Dhiman, Inf	(IC-64639) Aditya Shukla, AOC
(IC-64600) Varun Luthra, JAG	(IC-64640) Rohit Ohlan, Inf
(IC-64601) Tanul Singhal, Mech	(IC-64641) Gurmohinder Singh, Inf
(IC-64602) Atul Diwakar, Inf	(IC-64642) Sanyog Singh Patial, AOC
(IC-64603) Sumesh Stanley Lobo, AOC	(IC-64643) Thorat Peter Prakash, Inf
(IC-64604) MD Ali, Arty	(IC-64644) Siddhartha Chansoria, AC
(IC-64605) Arbind Kumar Singh, Inf	(IC-64645) Raman Tiwari, Inf

(IC-64646) Vaibhav Singh, ASC	(IC-64687) Mahesh Shivshetti Hallale, Engrs
(IC-64647) Pawan Tokas, Inf	(IC-64688) Rishabh Kumar Jain, Engrs
(IC-64648) Shovan Kumar Santra, Arty	(IC-64689) Rajat Behl, EME
(IC-64649) Bhalinder Singh, AOC	(IC-64690) Apurve Warrior, Inf
(IC-64650) Santosh Kumar Ghosh, Inf	(IC-64691) Shiv Kumar Sharma, Engrs
(IC-64651) Anubhav Singh, Inf	(IC-64692) Vikrant Bora, Engrs
(IC-64652) Daksh Mathur, Arty	(IC-64693) Ankit Singhal, Sigs
(IC-64653) Raj Chaitanya Addagada, Inf	(IC-64694) Mihir Ghooi, EME
(IC-64654) Virat Oberoi, Inf	(IC-64695) Sumit Gupta, Sigs
(IC-64655) Siddhartha Chakrabarti, Inf	(IC-64696) Rakesh Rawat, Inf
(IC-64656) Saket Kumar Mishra, Inf	(IC-64698) Arvind Kumar, Sigs
(IC-64657) Tarun Vats, Inf	(IC-64699) Sumeet Singh, EME
(IC-64658) Ved Prakash Mishra, AD	(IC-64701) Sandeep Bhanot, Inf
(IC-64659) Abhishek Chakraborty, Engrs	(IC-64702) Mohammad Raza Israil, EME
(IC-64660) Tanmay Mohiley, Inf	(IC-64703) Ankur Batra, EME
(IC-64661) Abhijeet Guru, EME	(IC-64704) Mrinal Mehta, Sigs
(IC-64662) Rajneesh Kumar, Mech	(IC-64705) Devendra Kumar Pandey, Sigs
(IC-64663) Nitin Pandoh, Arty	(IC-64706) Amit Malik, Inf
(IC-64664) Hemender Dev Bhatia, Arty	(IC-64707) Amit Chhetri, EME
(IC-64665) Vinay Kumar Panwar, Arty	(IC-64708) Prateek Pratap Johari, Inf
(IC-64666) Sudhanshu Dhyani, Inf	(IC-64709) Vikash Saha, Sigs
(IC-64667) Abhishek Singh, Mech	(IC-64710) Abhimanyu Kadian, Engrs
(IC-64668) Ravinder Singh Chahal, Inf	(IC-64711) Ravi Makhija, EME
(IC-64669) Madhukar Sisodia, Inf	(IC-64712) Ashish Kumar, Engrs
(IC-64670) Sushil Kumar, Inf	(IC-64713) Pisharody Arun Balakrishanan, Engrs
(IC-64671) Abhishek Roy, AOC	(IC-64714) Lalit Kansal, Sigs
(IC-64672) Anupam Garg, ASC	(IC-64715) Shailender Singh Ahlawat, Inf
(IC-64673) Dhananjay Singh Rathore, AC	(IC-64716) Naveen Kumar Chaudhary, Engrs
(IC-64674) Kartikeay Singh, Inf	(IC-64717) Gaurav, EME
(IC-64676) Sandeep Rana, Sigs	(IC-64718) Himanshu Chhaunker, EME
(IC-64677) Shashank Sharad Joshi, Sigs	(IC-64719) Rajendra Mahavir Jamalpure, Sigs
(IC-64678) Nagendra Kumar, Engrs	(IC-64720) Arvindam Shekhar Chaudhury, EME
(IC-64679) Gunmeet Singh Mallan, EME	(IC-64722) Ajit Baboo Yadav, Engrs
(IC-64680) Rajeev Kumar Rai, Sigs	(IC-64723) Kiran Kumar Somasundar, Engrs
(IC-64681) K Senthil Kumar, Engrs	(IC-64724) Avhad Avinash Ashok Rao, Engrs
(IC-64682) Santosh Kumar, EME	(IC-64725) Arpan Grover, EME
(IC-64683) Pranav Mishra, Engrs	(IC-64727) Ankur Tyagi, Sigs
(IC-64684) Amit Kumar Tiwari, Engrs	(IC-64728) Khatri Vinayak Shashikant, Sigs
(IC-64685) Puneet Sasan, Engrs	(IC-64729) Prakash Raut, EME

(IC-64730) Kunal Sharma, EME	(IC-68957) Ashish Raheja, Sigs
(IC-64731) Kamble Ritish Bhimrao, Inf	(IC-68959) Pradeep Kumar, EME
(IC-64732) Shitij Kishore Sharma, Engrs	(IC-68960) Jayant Kadam, Engrs
(IC-64733) K Vinod, Sigs	(IC-68961) Anant Vaibhav Sharma, EME
(IC-64734) Sarwesh Ranjan, Engrs	(IC-68962) Ashwani Kumar, EME
(IC-64735) Sagar Thapa, Engrs	(IC-68964) Nagar Vishal Vithaldas, Engrs
(IC-64736) Sudhir Payal, Engrs	(IC-68966) Sumit Mishra, Sigs
(IC-64739) Harish Prakash, Sigs	(IC-68967) Ashok Kumar, Engrs
(IC-64756) Avinash Rawal, AEC	(IC-68970) Praveen Kumar Nair, Engrs
(IC-64760) Bipin Kumar Shukla, AEC	(IC-68971) D Shiva Kumar, EME
(IC-64790) K Anup Nair, AEC	(IC-68972) Anil Kumar Sahu, Sigs
(IC-64807) Lalnun Siana, AEC	(IC-68973) Sandeep Khasa, EME
	(IC-68974) Maneesh Sharma, Engrs
—10 Dec 2010	(IC-68975) Deepak Manhas, EME
(IC-68925) Irom Chingkheinganba, Engrs	(IC-68977) Surender Verma, EME
(IC-68926) Anajit Ganguly, Sigs	(IC-68978) Sumant Kumar Sharma, Sigs
(IC-68927) Shaurya Sood, Sigs	(IC-68980) Pramod Shenoy R, Sigs
(IC-68928) Ratan Deep Seeyol, EME	
(IC-68929) Amardeep Singh Multani, EME	RAHUL SHARMA
(IC-68930) Dhruv Shankar Saxena, Engrs	Lt Col
(IC-68931) Vivek Malik, Engrs	AMS-8B
(IC-68933) Satinder Khola, AAD	
(IC-68934) Gagandeep Hanspal, EME	ARMY BRANCH
(IC-68936) Ashish Bhardwaj, Engrs	No. 245, dated 29th April 2011—The President is pleased to make the following promotions :—
(IC-68937) Aakash Tripathi, EME	TERRITORIAL ARMY
(IC-68938) Patil Umesh Ashok, Engrs	TERRITORIAL COMMISSION
(IC-68939) Sukreet Singh Sidhu, AC	To be Maj
(IC-68940) Navin Kumar, Engrs	Capt R Raghuraman (TA-42261) (Engr TA), 16 Dec 2004
(IC-68941) Jeta Pundlikrao Dhongde, Engrs	JAI RAJ
(IC-68942) Abhinav Yadav, Engrs	Dy Secy
(IC-68943) Thakkar Dhruv Deepak, EME	
(IC-68945) P Srinivasan, Sigs	ARMY BRANCH
(IC-68946) Navleen Singh Raj Pal, Sigs	No. 246, dated 29th April 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—
(IC-68948) Naved Akhtar, EME	REGULAR ARMY
(IC-68949) Bhapkar Abhishek Jagannath, Sigs	(PERMANENT COMMISSION)
(IC-68950) Sharath Shankar, Engrs	To be Sqn Ldr
(IC-68951) Manu Chhabra, Engrs	Sachin Rathore (MS-15390L/AF-28868R) (MR-09093F), AMC, 22 Sep 2007
(IC-68952) Naveen Kumar Sharma, EME	(MoD Notification published in Gazette of India dated 27 Dec 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)
(IC-68954) Jagdeep Singh, Sigs	
(IC-68955) Sumit Dubey, EME	
(IC-68956) Ashwani Suthar, Sigs	

Chetan C Patil (MS-15486N/AF-28870L) (MR-09076F),
AMC, 22 Sep 2010

Bhendigiri Shirish Ramesh (MS-15485L/AF-28869T)
(MR-09075Y), AMC, 22 Sep 2008

Ashwini Kumar (MS-15483A/AF-28878R) (MR-09072L),
AMC, 22 Jan 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated
22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Dipak Kumar Boro (MS-15173P/AF-28409S) (MR-
09064MF), AMC, 16 Jun 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated
18 Oct 2008 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Ajay Kumar (MS-14863M/AF-27663N) (MR-09084A),
AMC, 11 Aug 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated
06 Nov 2010 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

To be Flt Lt

Ajay Kumar (MS-14863M/AF-27663N) (MR-09084A),
AMC, 11 Aug 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated
17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Shailendra Singh (MS-15090K/AF-28385T) (MR-09077K),
AMC, 17 Sep 2006

On completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated
17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

YASH PANDE
Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 247, dated 29th April 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Jagir Singh (JC-193243K), 01 Mar 2011

To be Subs Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Surendra Kumar Sharma (JC-841531N), 01 Mar
2011

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Hardev Singh (JC-841592L), 01 Feb 2011

Nb Sub Kailash Kumar Pandey (JC-841625L), 01 Feb 2011

Nb Sub Hans Raj (JC-841643N), 01 Mar 2011

Nb Sub Ramji Lal (JC-841648M), 01 Mar 2011

Nb Sub Amar Singh (JC-841649P), 01 Mar 2011

To be Subs Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Rattan Singh (JC-842033N), 01 Mar 2011

PRADEEP KUMAR

Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 248, dated 2nd May 2011—The President is pleased
to make the following substantive promotion:-

REGULAR ARMY

Corps of Engineers

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Birbal Singh Bhudanla (JC-348672H), 03 Jun
2010

Sub (GD) Ram Shankar (JC-348807Y), 01 Aug 2010

Sub (GD) Abdul Gaffar (JC-348921W), 17 Sep 2010

Sub (GD) Malkiat Singh (JC-349060X), 15 Oct 2010

Sub (GD) Mohammad Sharief (JC-349096W), 06 Oct 2010

Sub (GD) Asik Ahmad (JC-349092A), 03 Nov 2010

Sub (GD) Jadhav Devidas Rangrao (JC-349106P), 11 Nov
2010

Sub (GD) Hari Singh (JC-349123P), 02 Dec 2010

Sub (GD) Hardev Singh Randhawa (JC-349125A), 01 Dec
2010

Sub (GD) Gulwant Singh (JC-349079W), 09 Dec 2010

Sub (GD) Anand Singh (JC-347982F), 03 Jan 2011

To be Sub Maj (Clk SD)

Sub (Clk SD) Prem Chand (JC-348232P), 06 Aug 2010

Sub (Clk SD) Shishupal Singh (JC-348385Y), 02 Aug 2010

Sub (Clk SD) Raj Bali (JC-348532W), 09 Aug 2010

Sub (Clk SD) Ram Nath (JC-348543H), 02 Aug 2010

Sub (Clk SD) Shri Pal (JC-348545N), 13 Aug 2010

Sub (Clk SD) Harswarup Singh Verma (JC-348531N),
03 Oct 2010

Sub (Clk SD) Ram Bhagat Singh (JC-348590A), 14 Oct
2010

Sub (Clk SD) Chandar Sekhar Upadhyaya (JC-348608L),
01 Nov 2010

Sub (Clk SD) Girish Chandra Belwal (JC-348648M),
09 Nov 2010

Sub (Clk SD) Kalam Singh (JC-348650K), 05 Nov 2010

Sub (Clk SD) Ram Karan Kaushik (JC-348673L), 03 Jan
2011

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk SD) Vijay Pal Singh (JC-350201N), 06 Jan
2011

Nb Sub (Clk SD) Ghan Shyam Singh (JC-350203Y),
01 Dec 2010

Nb Sub (Clk SD) Sarnam Singh (JC-351253W), 01 Jan
2011

Nb Sub (Clk SD) Ashok Kumar (JC-350292H), 01 Jan 2011

Nb Sub (Clk SD) Ramesh Singh Taryal (JC-350202W),
24 Jan 2011

Nb Sub (Clk SD) Pratap Singh (JC-350279Y), 02 Feb 2011

Nb Sub (Clk SD) Laxmi Shankar (JC-350280N), 01 Feb
2011

Nb Sub (Clk SD) Veerendra Singh (JC-350294N), 04 Feb
2011

Nb Sub (Clk SD) Rajan C (JC-350305P), 01 Feb 2011

Nb Sub (Clk SD) Ashok Mane (JC-350380Y), 01 Feb 2011

Nb Sub (Clk SD) Goutam Kumar Bera (JC-350320K),
01 Feb 2011

Nb Sub (Clk SD) Mahendra Thami (JC-350323X), 01 Mar
2011

Nb Sub (Clk SD) Dharm Vir Sharma (JC-350179N), 02 Aug
2010

Nb Sub (Clk SD) Daya Ram (JC-349766M), 04 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Anil Kumar Sharma (JC-350135W),
04 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Ram Narayan Singh Yadav (JC-350167Y),
01 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Shyamal Kumar Biswas (JC-350168F),
01 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Devendra Singh Bhadoria (JC-350181L),
01 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Raj Kumar (JC-350169K), 01 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Rajendra Kumar (JC-350190M), 01 Oct
2010

Nb Sub (Clk SD) Mehar Chand (JC-350188P), 08 Oct 2010

Nb Sub (Clk SD) Mahendra Singh (JC-350189X), 09 Nov
2010

Nb Sub (Clk SD) Sheo Kumar Ram (JC-350199F), 01 Nov
2010

Nb Sub (Clk SD) Surendra Singh (JC-350200L), 07 Nov
2010

Nb Sub (Clk SD) Keshava Kumar (JC-350260A), 01 Nov
2010

Nb Sub (Clk SD) Hardev Singh (JC-350204F), 01 Dec 2010

Nb Sub (Clk SD) Tilak Dhari V (JC-350219K), 06 Dec 2010

Nb Sub (Clk SD) Ravendra Singh Talan (JC-350246N),
03 Jan 2011

Nb Sub (Clk SD) Gulzar Ram (JC-350220Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (Clk SD) Bhagwan Das (JC-350293L), 01 Jan 2011

To be Sub (GD)

Nb Sub (GD) Baghel Singh (JC-350520A), 24 Jul 2010

Nb Sub (GD) Charan Singh (JC-350509F), 16 Jul 2010

Nb Sub (GD) Jadhav Suresh Dagadu (JC-350519L), 06 Jul
2010

Nb Sub (GD) Yousuf Ali (JC-350515P), 15 Jul 2010

Nb Sub (GD) Kenjale Popat Ramchandra (JC-350530K),
16 Aug 2010

Nb Sub (GD) Sukhdev Singh (JC-350511Y), 27 Jul 2010

Nb Sub (GD) Karamjit Singh (JC-350257A), 15 Aug 2010

Nb Sub (GD) Shiv Janam Prasad (JC-350343L), 15 Aug
2010

Nb Sub (GD) Sadhu Singh (JC-350523N), 01 Aug 2010

Nb Sub (GD) Pawar Sanjaya Dattatraya (JC-350525Y),
19 Aug 2010

Nb Sub (GD) Tomy K U (JC-350524W), 05 Aug 2010

Nb Sub (GD) Shinde Madhukar Rao Saheb (JC-350550X),
01 Sep 2010

Nb Sub (GD) Sumer Singh (JC-350528M), 01 Sep 2010

Nb Sub (GD) Fonde Babaso Rama (JC-350568N), 01 Sep
2010

Nb Sub (GD) Bhosale Rajendra Maruti (JC-350572W),
01 Sep 2010

Nb Sub (GD) Pal Singh (JC-350527K), 01 Sep 2010

Nb Sub (GD) Satwinder Singh (JC-350617L), 01 Oct 2010

Nb Sub (GD) Munir Ahmed Khan (JC-350599N), 04 Oct
2010

Nb Sub (GD) Surjit Singh (JC-350689P), 01 Oct 2010

Nb Sub (GD) Khem Chand (JC-350600X), 06 Oct 2010

Nb Sub (GD) Mohmmad Adalat (JC-350603L), 01 Oct 2010

Nb Sub (GD) Avtar Singh (JC-350609M), 04 Oct 2010

- Nb Sub (GD) Kulwant Singh (JC-350621N), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Satpal Singh (JC-350608K), 06 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Prem Singh (JC-350610F), 04 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Amarjit Singh (JC-350611K), 07 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Mohammad Sakeel (JC-350622W), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) More Vijay Vasudeo (JC-350612M), 02 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Malkiat Singh (JC-350613P), 10 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Piar Chand (JC-350629A), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Satpal Singh (JC-350626M), 19 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Hiralal Hagraji Khadse (JC-350627P), 04 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Baldev Singh (JC-350628X), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Jondhale R P (JC-350653W), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Riasat Alam (JC-350543F), 30 Aug 2010
- Nb Sub (GD) Jagtap Prakash Daulat Rao (JC-350526), 09 Sep 2010
- Nb Sub (GD) R Rajendran (JC-350544K), 01 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Ramanand Yadav (JC-350555W), 01 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Brijesh Kumar (JC-350549H), 03 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Ranjit Singh (JC-350551A), 01 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Rlyaz Ahmed (JC-350556Y), 02 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Dalip Singh (JC-350567L), 01 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Harjinder Singh (JC-350564X), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Balwinder Singh (JC-350565A), 01 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Mohd Irfan (JC-350566H), 16 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Asmad Ali Ansari (JC-350573Y), 15 Sep 2010
- Nb Sub (GD) Mohan Singh (JC-350658P), 11 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Gurjant Singh (JC-350666N), 12 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Gurmit Singh (JC-350604N), 01 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Abdul Gani Mansuri (JC-350598L), 27 Oct 2010
- Nb Sub (GD) Ashok Kumar Pandey (JC-350618N), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Charanjit Singh (JC-350654Y), 02 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Asaraf Ali (JC-350655F), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Balbir Singh (JC-350639K), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Lakhwinder Singh (JC-350656K), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Naranjan Singh (JC-350657M), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Rizuddin Khan (JC-350659X), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Harinath Prasad (JC-350642K), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Prem Chand (JC-350660M), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Kulwinder Singh (JC-350661P), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Harbans Singh (JC-350662X), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Raj Kumar (JC-350663A), 11 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Pramod Kumar Singh (JC-350644P), 13 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Mahadev Krishna Chavan (JC-350782W), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Raj Kumar (JC-350700H), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Shishan Singh (JC-350667W), 01 Nov 2010
- Nb Sub (GD) Tilak Raj (JC-350601A), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Mandar Singh (JC-350668Y), 23 Dec 2010
- Nb Sub (GD) P Balasubramaniam (JC-350669F), 03 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Brijendra Singh Negi (JC-350670W), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Julfekar Khan (JC-350672F), 13 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Ramzan (JC-350673K), 24 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Harpal Singh (JC-350676X), 02 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Nagendra Giri (JC-350731H), 16 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Ram Pravesh Singh (JC-350732L), 13 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Krishan Lal (JC-350702N), 15 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Bharat Singh (JC-350703W), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Anantram Bhuraji Kore (JC-350677A), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Tara Singh (JC-350678H), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Rajesh Rai (JC-350704Y), 15 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Viond Kumar (JC-350705F), 21 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Kulwant Singh (JC-350679L), 10 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Krishna Kumar (JC-350734W), 21 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Lanke Raghunath Kishan Rao (JC-350684W), 01 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Sita Ram Dadu Jadhav (JC-350680A), 21 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Sagat Singh (JC-350710M), 08 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Akhilaswar Parsad (JC-350681H), 18 Dec 2010
- Nb Sub (GD) Sunil Kumar (JC-350682L), 23 Dec 2010

Nb Sub (GD) Balvir Singh (JC-350735Y), 14 Dec 2010

Nb Sub (GD) Parte Prakash Sahadev (JC-350783Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Uttekar Tanaji Dattu (JC-350712X), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Munna Khan (JC-350713A), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Rafikul Islam (JC-350714H), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Khaire Pandurang V (JC-350715L), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Jai Prakash (JC-350834F), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Dev Nath Singh Yadav (JC-350744A), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Nirmal Singh (JC-350766Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Vijay Babarao Kale (JC-350719F), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Jai Narayan (JC-350767F), 01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Devendra Kumar (JC-350721Y), 11 Jan 2011

Nb Sub (GD) Bisraj Khan (JC-349667K), 06 Jan 2011

To be Sub (SKT)

Nb Sub (SKT) Yamuna Prasad (JC-349721M), 03 Aug 2010

Nb Sub (SKT) Narendrapal Singh (JC-349722P), 01 Nov 2010

Nb Sub (SKT) Malkar Prakash Sahebrao (JC-349723X), 01 Nov 2010

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Tuk Bahadur Thapa (JC-347948F), 18 Oct 2010

ALKA JOSHI
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 249, dated 2nd May 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

NM Joglekar to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 10 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

K K Oormila to be Hindi Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 20 Dec 2010 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/-

JB Nageswara Rao to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 12 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

A Anitha to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 17 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

MC Kurihal to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

K Gopal to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

C Jai Sree to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 06 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

K R Jagdishappa to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 29 Dec 2010 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

D Vijayamala to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 31 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Usha Garg to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

P Ramachandran to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

A Sampoorna to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

G Yadagiri to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

R S N Murthy to be Private Secretary 'A', Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

Charan Rao to be Admin Officer, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 Jan 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/-

VP SINGH
Dy Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 250, dated 2nd May 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Flt Lt

Dipak Kumar Boro (MS-15173P)/(AF-28409S)/(MR-09064M), AMC, 16 Dec 2005 with seniority for pay and promotion from 16 Jun 2002 this includes 36 months antedate

for Doctor of Medicine and 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity

(MoD notification published in Gazette of India dated 17 Mar 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sridhara Reddy (MS-15479X)/(AF-28876N)/(MR-09079P), AMC, 22 Jan 2007

(MoD notification published in Gazette of India dated 24 Jan 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manwatkar Shrikant Krushnarao (MS-15472N)/(AF-28884L)/(MR-09068H), AMC, 22 Jan 2007

(MoD notification published in Gazette of India dated 24 Jan 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Bhaskar Das (MS-15554W)/(AF-28903L)/(MR-09071H), AMC, 17 Apr 2007 with seniority for pay and promotion from 17 Oct 2006 this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity

(MoD notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ashwini Kumar (MS-15483A)/(AF-28878A)/(MR-09072L), AMC, 22 Jan 2007 with seniority for pay and promotion from 22 Jan 2005 this includes 24 months antedate for PG Diploma in Oto-Rhino-Laryngology which will not count for gratuity

(MoD notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Bhendigiri Shirish Ramesh (MS-15485L)/(AF-28869T)/(MR-09075Y), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 this includes 24 months antedate for PG Diploma in Gynecology and Obstetrics which will not count for gratuity

(MoD notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sachin Rathore (MS-15390L)/(AF-28868R)/(MR-09093F), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2003 this includes 36 months antedate for Master of Surgery (Ophthalmology) which will not count for gratuity

(MoD notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Chetan C Patil (MS-15486N)/(AF-28870L)/(MR-09076F), AMC, 22 Sep 2006

(MoD notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ajay Kumar (MS-14863M)/(AF-27663N)/(MR-09084A), AMC, 22 Sep 2004

(MoD notification published in Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2010 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Fg Offr (On Prob)

Shailendra Singh (MS-15090K)/(AF-28385T)/(MR-09077K), AMC, 29 Oct 2005

(MoD notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)